

December 21, 2024

To, The Listing Department **BSE** Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

Ref.: Pasupati Fincap Limited (Scrip Code: 511734)

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 12,22,000 (TWELVE LAKH TWENTY TWO THOUSAND) EQUITY SHARES FROM THE SHAREHOLDERS OF **FINCAP** PASUPATI LIMITED, (HEREINAFTER REFERRED TO ("PFL/"TARGET COMPANY"/"TC") BY MR. DINESH PAREEKH (ACQUIRER).

We are pleased to submit Copy of Pre-Offer Public Announcement, Corrigendum to the Detailed Public Statement & the Letter of Offer dated December 21, 2024 pursuant to, and in compliance with applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the Pre-Offer Public Announcement, Corrigendum to the Detailed Public Statement & the Letter of Offer has been published in the following Newspapers on December 23, 2024:

| S. No. | Newspapers | Language | Editions |
|--------|-------------------|----------|----------------|
| 1. | Financial Express | English | All Editions |
| 2. | Jansatta | Hindi | All Editions |
| 3. | Mumbai Lakshadeep | Marathi | Mumbai Edition |

We are enclosing herewith a soft copy of newspaper clipping of the Pre-Offer Public Announcement, Corrigendum to the Detailed Public Statement & the Letter of Offer published in Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) for your kind perusal.

Kindly take the above information on your records.

Thanking You, Yours faithfully

For Fintell Caral Corporate Advisors Private Limited

Director

FINTELLECTUAL CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED

CIN: U74999DL2021PTC377748 🧿 Reg. Office: S-15, First Floor, Sapient House, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020

O Corporate Office: B-20, Second Floor, Sector-1, Noida, Uttar Pradesh-201 301

o info@fintellectualadvisors.com | valuations@fintellectualadvisors.com

www.fintellectualadvisors.com 🔇 Tel: +91-120-4266080

PRE-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT, CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT & THE LETTER OF OFFER UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

PASUPATI FINCAP LIMITED

CIN: L70100HR1996PLC033099 tered office: Village Kapriwas, Dharuhera, District Rewari, Haryana-123106 Phone: 01274-267257-58; Website: www.pasupatifincap.co.in; Email Id: cs@pasupatitextiles.com;

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 12,22,000 (Twelve Lakh Twenty Two Thousand) EQUITY SHARES OF ₹10 EACH FROM THE SHAREHOLDERS OF PASUPATI FINCAP LIMITED, (HEREINAFTER REFERRED TO AS ("PFL/"TARGET COMPANY"/"TC") BY MR. DINESH PAREEKH (ACQUIRER), PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Pre-Offer Public Announcement, Corrigendum to the Detailed Public Statement & the Letter of Offer is being issued by Fintellectual Corporate Advisors Private Limited ('Manager to the Offer'), for and on behalf of Mr. Dinesh Pareekh ('Acquirer') pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)
Regulations, 2011, as amended ['SEBI (SAST) Regulations,], in respect of the Open Offer to acquire 12,22,000 (Twelve Lakh Twenty Two Thousand) Equity Shares of ₹10/- each of Pasupati Fincap Limited, (Hereinafter Referred to as ("PFL/"Target Company"/"TC") representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was published in all editions of the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated) on Monday, October 14, 2024.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE OFFER.

- The Offer Price is ₹10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share. The Offer price will be paid in Cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulation, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS and Letter of Offer. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommended that the Offer Price of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. The recommendation of the IDC was published on December 20, 2024 in all editions of the Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated). Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.
- The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. Further, there has been no competitive
- The Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) (hereinafter collectively referred to as "Letter of Offer") dated December 11, 2024, was mailed on December 17, 2024 through electronic means to all the Public Shareholders of the Target Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on December 17, 2024, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on December 10, 2024. ('Identified Date').
- The Letter of Offer is also available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) and is available on the Manager to Offer's website (www.fintellectualadvisors.com) and the Shareholders can also apply by downloading the form of acceptance from the websites as
- Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement" at page 20 of the Letter of 6. Offer in relation to inter alia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. A summary of procedure for tendering Equity Shares in the Open Offer is set out below:
 - a. In Case of Equity Shares held in dematerialized form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.2 of the Letter of Offer.
 - b. In case of Equity Shares held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.3 of the Letter of Offer along with Form SH-4.
 - c. In case of non-receipt of the Letter of Offer: Public Shareholders may (i) download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) and can apply by using the same; or (ii) obtain a physical copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares. Alternatively, such Public Shareholders can download the soft copy of the Letter of Offer from the SEBI website www.sebi.gov.in as well as from the Manager to the Offer website www.fintellectualadvisors.com. Alternatively, in case of non receipt of the Letter of Offer, Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Open Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares being tendered and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by BSE before the Offer Closing Date.
- The Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 21, 2024 in accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. All observations from SEBI via letter number SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/P/OW/2024/37723/1 dated December 06, 2024, which was received on December 06, 2024, have been duly incorporated in the Letter of Offer, according to Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011
- There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on October 07, 2024, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
- As of the date of this Offer Opening Public Announcement, no statutory approvals were required by the Acquirer to complete this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the Tendering Period, the Offer shall be subject to all such statutory approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals.

| 10. Revised Schedule of Activities: | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Tentative Schedule of Activities | Original Schedule of Activities Day and Date | Revised Schedule of Activities (Day and Date)* | | |
| Date of the Public Announcement | Monday, October 07, 2024 | Monday, October 07, 2024 | | |
| Date of publication of the Detailed Public Statement | Monday, October 14, 2024 | Monday, October 14, 2024 | | |
| Last date of filing of the draft Letter of Offer with SEBI | Monday, October 21, 2024 | Monday, October 21, 2024 | | |
| Last date for a Competing Offer^ | Tuesday, November 05, 2024 | Tuesday, November 05, 2024 | | |
| Identified Date# | Thursday, November 14, 2024 | Tuesday, December 10, 2024 | | |
| Last date by which Letter of Offer will be dispatched | Friday, November 22, 2024 | Tuesday, December 17, 2024 | | |
| to the Shareholders | | | | |
| Last date by which an independent committee of the | Tuesday, November 26, 2024 | Friday, December 20, 2024 | | |
| Board of Target Company shall give its recommendation | | | | |
| Last date for revising the Offer Price/ Offer Size | Wednesday, November 27, 2024 | Friday, December 20, 2024 | | |
| Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, | Thursday, November 28, 2024 | Monday, December 23, 2024 | | |
| status of statutory and other approvals in newspaper | | | | |
| Date of commencement of tendering period | Friday, November 29, 2024 | Tuesday, December 24, 2024 | | |
| (Offer Opening Date) | | | | |
| Date of expiry of tendering period (Offer Closing Date) | Thursday, December 12, 2024 | Tuesday, January 07, 2025 | | |
| Date by which all requirements including payment of | Friday, December 27, 2024 | Tuesday, January 21, 2025 | | |
| consideration would be completed | | | | |
| | | | | |

The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various regulatory authorities and may have to be revised accordingly throughout this document

Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and the parties to the Share Purchase Agreement) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

^ There was no competing offer.

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS

This important information is pursuant to Letter of Offer dated December 11, 2024, which was mailed on December 17, 2024 through electronic means to all the Public Shareholders of the Target Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on December 17, 2024, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on December 10, 2024. ('Identified Date'). The following errors were noted in the Letter of Offer, and the same are being corrected as under:

1) Correction to the Offer Closing Date:

The Offer Closing Date (i.e., the date of expiry of the tendering period) was erroneously mentioned as January 07, 2024 on the cover page of the Letter of Offer

The correct Offer Closing Date is January 07, 2025.

Correction to the STD Code of Telephone Number: The STD code of the telephone number of the Manager to the Offer on cover page was erroneously mentioned as 1120 in the Letter

of Offer while the correct STD code is 0120. All other terms and conditions of the Offer, as mentioned in the Letter of Offer, remain unchanged.

The Acquirer accepts the responsibility for the information contained in this Advertisement and for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. This Advertisement will also be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Open Offer



Fintellectual Corporate Advisors Private Limited

Corporate Off.: B-20, Second Floor, Sector 1, Noida 201301

Tel No.: +91-0120-4266080 Website: www.fintellectualadvisors.com

Email Address: info@fintellectualadvisors.com Contact Person: Mr. Amit Puri SEBI Registration Number: MB/INM000012944

Validity: Permanent

Place: New Delhi

Date: 21.12.2024

CIN: U74999DL2021PTC377748

Sd/-Dinesh Pareekh Acquire

प्रकरणी 838 जणांना

आसाम :

बालविवाह

अटक गुवाहटी, दि.२२: आसाम सरकारने बालविवाहाच्या विरोधात कठोर कारवाई सुरू केली

आहे. बालविवाहाच्या विरोधातील मोहिमेचा एक भाग म्हणून आसाम पोलिसांनी काल रात्री ३३५ गुन्हे दाखल करत ४१६ जणांना अटक केली आहे. या सर्व आरोपींना आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री हिमंता बिरुवा सरमा यांनी ट्विटरव (एक्स) पोस्ट करत माहिती दिलीय. यासंदर्भातील सोशल मिडीया पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री म्हणाले की, आसामने

बालविवाहाविरुद्धचा

लढा सुरूच ठेवला आहे.

बालविवाहाच्या विरोधात

काल रात्री सुरू करण्यात

आलेल्या कारवाईच्या

तिसऱ्या टप्प्यात ४१६

अटक करण्यात आली

दाखल करण्यात आले

आहेत. अटक करण्यात

आज न्यायालयात हजर

करण्यात येणार आहे.

ही सामाजिक कुप्रथा

संपवण्यासाठी आम्ही

धाडसी पावले उचलत

राह् असे मुख्यमंत्र्यांनी

नमूद केलेय.

आलेल्या आरोपींना

असून ३३५ गुन्हे

रोज वाचा

जाहीर सूचना

रिसर्च ॲण्ड ॲनालिसीस एलएलपी हे निवासी नागा अर्थात **फ्लॅट क्र.१७०२, १७वा मजला**, मेलेम्तीया म्प्रेमेम को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि.ची टॉवर ए म्हणून ज्ञात इमारत टोकरशी जिवराज रोड, शिवडी (पश्चिम), मुंबई-४०००१५, क्षेत्रफळ कार्पेट क्षेत्र १०७.०२ **चौ.मी. तत्सम ११५२ चौ.फु. तसेच पो**डियम स्तर ५ वरील वापरयोग्य दोन कार पार्किंग जागा क्र. १९२ व १९३ (सदर मालमत्ता) येथील जागेचे मालक आहेत. ज्याअर्थी सदर मालमत्तेच्या गलकाचे पुर्वीचे नाव **एससीआयएल व्हेन्चर्स** लिमिटेड होते जे पुढे सिक्युरिटीज रिसर्च ॲण्ड **ॲनालिसीस प्रायव्हेट लिमिटेड** यांच्यासह विलीन झाले, जे पुढे **सिक्युरिटीज रिसर्च ॲण्ड ॲनालिसीस एलएलपी** मध्ये रुपांतरीत करण्यात आले होते.

सिक्युरिटीज रिसर्च ॲण्ड ॲनालिसीस एलएलपी (पुर्वीची मे. सिक्युरिटीज रिसर्च ॲण्ड अँनालिसीस प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ज्ञात) यांनी सर्व अधिभारापासून मुक्त असलेली सदर जागा माझे अशिलांकडे विक्री करण्यासाठी करारनामा केला आहे आणि जर कोणा व्यक्तीस/कायदेशीर वारसदारास सदर जागेबाबत कोणताही दावा, आक्षेप किंवा अधिकार, हक्क, हित इत्यादी असल्यास त्यांनी सदर सूचना प्रकाशनापासून १५ दिवसांत आवश्यक कागदोपत्री पुराव्यांसह खालील स्वाक्षरीकर्ताकडे कळवावे. अन्यथा माझे अशील सदर सचनेच्या दिवस समाप्तीनंतर प्राप्त कोणताही दावा विचारात न घेता उपरोक्त जागेच्या खरेदीची सर्व प्रक्रिया माझे अशील पुर्ण करतील.

आज दिनांकीत २३ डिसेंबर, २०२४

राहुल नरेंद्र सिंग वकील उच्च न्यायालय दुकान क्र.६८, पवई प्लाझा, हिरानंदानी गार्डन्स. पवई, मुंबई-४०००७६

जाहिर सूचना

मंबर्ड येथील मंबर्ड शहर दिवाणी न्यायालय मानसिक आरोग्य याचिका क्र.२६२/२०२४ मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ च्या बाबतीत आणि मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ च्या

अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ चे कलम

श्री. हिषकेश सुभाष नाईक यांच्या व्यक्ती आणि मालमत्तेचे संरक्षक नेमण्याच्या बाबतीत

मानसिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्ती. **१. श्री. शैलेश सुभाष नाईक**, वयः ५४ वर्षे व्यवसाय: सेवा, राहणार-इंद्रप्रस्थ १३, डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर रोड, व्होल्टास समोर, लालबाग,

२. श्री. निलेश सुभाष नाईक, वयः ५१ वर्षे, १०७ इमारत क्र.२, सदगुरु को-ऑप.हौ.सो.लि. भाऊराव पाटील बाल उद्यानाजवळ, प्रतीक्षा नगर, सायन पूर्व

मंबई-४०००२२. सध्या वास्तव्य १०१, झैनाब अल खुरी इमारत १२अ स्ट्रीट अल हमरिया, बुर दुबई, दुबई, युनायटेड अरब इमिरेट्स, पीओ बॉक्स १७७००

... याचिकाकत

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, वरनामित याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तीचे पालक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी वर नमूद केलेली याचिका दांखल केली आहे आणि सदर थ्री. हृषिकेश सुभाष नाईक, जे मानसिक आजारी आणि अपंग व्यक्ती (सुरक्षेशिवार आणि मोबदला शिवाय) आणि त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि श्री. शैलेश सभाष नाईक आणि श्री नीलेश सभाष नाईक यांची श्री. हृषिकेश सुभाष नाईक यांच्या सदर अपंग व्यक्तीच्या मालमत्तेचे पालक

म्हणून नियुक्ती करणे. कोणत्याही पक्षाला त्यावर आक्षेप असल्यास, माननीय न्यायाधीश श्री. आर.व्ही. भक्ता यांच्या समक्ष दि.०२ जानेवारी, २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी सकार्ळ ११.०० वा. न्यायालय कक्ष क्र.०२ मध्ये बरोब कारणास्तव अधोस्वाक्षरीत लेखी कलवावे त्यानंत्र असे आश्रेप प्राप्त केले गेले आहेत असे प्रानले जार्दल माझ्या हस्ते आणि या माननीय न्यायालयाचा

शिक्क्यानिशी दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजी सही/ सही/-(शिक्का) उपनिबंधक मुद्रक

शहर दिवाणी न्यायालय, मुंबई ॲड. देविका पुरव, याचिकाकर्त्यांचे वकील, द्वारा.ॲड. प्रसाद राव, ३०१, राजेंद्र चेंबर्स, १९

नानाभाई लेन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

मोबाईल क्र.९९२०३९३१२३

नमुना क्र.आयएनसी-२६

(कंपनी (स्थापना) अधिनियम, २०१४ चे नियम ३० नुसार) विद्यमान कंपनीकरिता परवानासाठी वृत्तपत्रात प्रकाशित करावयाची जाहिरात

मुंबई येथील कंपनी निबंधक यांच्या समक्ष

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ चे उपकलम (५) आणि कंपनी (स्थापना) अधिनियम २०१४ चे नियम ३० चे उपनियम (३) प्रकरणात

आणि दी बॉम्बे झेविरीयन कॉपॉरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे नोंदणीकृत कार्यालय: सेन्ट झेवियर्स हाय स्कूल, २८९, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. ...याचिकाकर्ता

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ०२.१२.२०२४ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर विशेष ठरावानुसार कंपनीला कायद्याच्या कलम ८ अन्वये परवाना प्राप्त करण्यासाट कंपनीच्या नावा पुढे लिमिटेंड किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड असे अतिरिक्त शक्त न लावता कलम ८ अन्वये नोंद करण्याची इच्छा असल्याने कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८(५) आणि त्यातील नियमा अंतर्गत मुंबई येथील कंपनी निबंधकांकडे अर्ज करण्याचे योजिले आहे.

ु कोणा व्यक्तिच्या हितास कंपनीचे नोंदणीकत कार्यालयाच्या नियोजित बदलामुळे काही बाधा येत असल्यास त्यांनी त्यांच्या हिताचे स्वरूप व विरोधाचे कारण नमूद केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांचे आक्षेप रजि. पोस्टाने किंवा गुंतवणूकदार तक्रार नमुना भरून एमसीए-२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) वर सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून १४ दिवसांच्या आत **कंपनी निबंधक**, पत्ता: एव्हरेस्ट, १००, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई-४००००२, ई-मेल: oc.mumbai@mca.gov.in वर पाठवावी तसेच एक प्रत अर्जदार कंपनीला त्यांच्या खाली नमुद नोंदणीकृत कार्यालयात पाठवावे.

नोंदणीकृत कार्यालय: सेन्ट झेवियर्स हाय स्कूल, २८९, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. ई-मेलः sjtreas@gmail.com

संचालक मंडळाच्या वतीने व करित दी बॉम्बे झेविरीयन कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (अरुण कुमार लोबो)

(डीआयएन:0९६७७४८५)

युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड ताबा नोंद. कार्या : बसंत लोक, वसंत विहार, न्यु दिल्ली-१२००५७ सूचना

UNITY Small ŏॉर्पो. कार्या.: ५वा मजला, सेंट्रम हाऊस, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रुझ (पुर्व), मुंबई−४०००९

(सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ८(१) अन्वये) ज्याअर्थी, खालील स्वाक्षरीकर्ता हे सिक्युरीटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटोस्ट ॲक्ट, २००२ (५४/२००२) अंतर्गत **युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड**, नोंदणीकृत कार्यालय: **बसंत लोक, वसंत विहार, न्यु** . दिल्ली-१२००५७ आणि कॉर्पोरेट कार्यालय: ५वा मजला, सेंट्रम हाऊस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई-४०००९८ चे र्धिकृत अधिकारी आहेत आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ सहवाचिता कलम १३ अधिकाराअंतर्गत त्यांनी खाली नमुद तारखेला वितरीत केलेल्या मागणी सूचनेनुसार खालील कर्जदारांना सदर सूचना प्राप्त तारखेपासून ६० वसांच्या आत खालील तक्त्यात नमुद रक्कम जमा करण्यास सांगण्यात आले होते.

कर्जदार हे वर नमद केलेली रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरले असन कर्जदार व सर्वसामान्य जनतेस येथे सचित करण्यात येत आहे की. खालील स्वाक्षरीकर्त्यांनी सदेर कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (४) सहवाचिता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ८ अन्वये त्यांना प्राप्त असलेल्या अधिकाराअंतर्गत खाली नमूद केलेल्या मालमत्तेचा ताबा खाली नमुद तारखेला घेतलेला आहे.

| अ. | कर्जदार/सह-कर्जदार/तारणकर्ता/ | मागणी सूचना दिनांक | स्थावर मालमत्तेचे तपशील | ताबा दिनांक |
|------|--|--|--|--------------------------------|
| क्र. | जामिनदाराचे नाव व कर्ज खाते क्रमांक | व थकबाकी | | ताबा प्रकार |
| 8 | १. श्री. रामचंद्र परमानंद साहु (कर्जदार/ तारणकर्ता) २. श्रीमती संतोषी रामचंद्र साहु (जामिनदार) (कर्ज खाते क्र.०२८३३०८००००००९) | २७.०६.२०२४ क.२९,५४,९३७.५८ (रुपये एकवीस लाख चोपन्न हजार एकशे सदोतीस आणि पैसे अष्टावन्न फक्त) | श्री. रामचंद्र परमानंद साहु यांच्या मालकीची मालमता अर्थात फ्लंट क्र.३०२, ३रा मजला, बी१ विंग, बी इमारत – खेतान प्लायबुड प्रा.लि., खेतान रेसिडेन्सी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., बिगरशेत जमीन प्लॉट क्र.आरसी-५२ पैकी क्षेत्रफळ ४३१९.00 चौ.मी., गाव सारवली, प्राम पंचायती सारवलीच्या मर्यादेत. | २०.१२.२०२४ सांकेतिक ताबा |
| ? | मे. बिश्वजीत किराणा ॲण्ड जनरल स्टोअर्स (कर्जदार) श्री. रामचंद्र परमानंद साहु (कर्जदार/ तारणकर्ता) श्री. लक्ष्मण परमानंद साहु (जामिनदार) श्री. लक्ष्मण परमानंद साहु (जामिनदार) श्रीमती संतोषी रामचंद्र साहु (जामिनदार) (कर्ज खाते क्र.०२८१३०१०००००१८१) | २७.०६.२०२४ क.१६,६३,६२७.९६ (रुपये सोळा लाख त्रेसष्ट हजार सहाशे सत्तावीस आणि पैसे शहाण्णव फक्त) | पंचायत समिती व तालुका पालाघर, जल्हा पालाघर, पंचायत समिती व तालुका पालाघर, जल्हा पालाघर, ४०१५०६, महाराष्ट्र, फ्लॅटचे अंदाजे क्षेत्रफळ ४३० ची.फु. कार्पेट क्षेत्र व ५१० ची.फु. बिल्टअप क्षेत्र असलेल्या मालमतेचे सर्व भाग व खंड. इमारतीच्या चतुरिसमा: पुर्वेस: खासगी जमीन; पंच्चिमेस: स्ता; उत्तरेस: प्लॉट क्र.आरसी-५१; विक्रिणेस: खासगी जमीन: | २०.१२.२०२४ सांकेतिक ताबा |

विशेषतः कर्जदार व सर्वसामान्य जनतेस येथे सावध करण्यात येते की, सदर मालमत्तेसह कोणताही व्यवहार करू नये आणि सदर मालमत्तेसह वहार केलेला असल्यास त्यांनी **युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड** यांच्याकडे वर नमुद केलेली रक्कम तसेच त्यावरील व्याज मिळू-कित्रत रक्कम जमा करावी

प्रतिभुत मालमत्ता सोडविण्याकरीता, उपलब्ध वेळेच्या संबंधीत सदर कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (८) च्या तरतूर्दीकडे कर्जदारांचे ल वेधण्यात येत आहे. दिनांक: २३.१२.२०२४

युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड ठेकाण: पालघर

ताबा सूचना

ज्याअर्थी; इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँकने सिक्युरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रकशन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटम् ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २०० (५४/२००२) (सदर कायदा) अंतर्गत आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ सहवाचिता कलम १३(१२) अन्वये असलेल्या अधिकाराअंतर्ग यांनी दिनांक ११.१२.२०१७ रोजी वितरीत केलेल्या मागणी सूचनेनुसार कर्जदार/सह–कर्जदार/जामिनदार आणि तारणकर्ता **श्री. संदीप कारभारी आव्हाड/श्रीमती ता**र्ड . मंदीप आव्हाड/श्री. आव्हाड कारभारी रामजी/श्रीमती सुलाबाई कारभारी रामजी (कर्ज खाते क्र.व्हीएलपीएचव्हीएसएचआय०००२५००) दिनांक ०६.१२.२०१७ रोजी सदर सुविधेच्या संदर्भात रु.६,८०,८९०/- **(रुपये सहा लाख एँशी हजार आठशे नव्यद फक्त)** रक्कम परतफेड करणे आणि दंडात्मक व्याज दिनांक ०७.१२.२०१७ पासून देय/ वसुली होईपर्यंत, सदर सूचना मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी**, इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक फायनान्स लि**.ने दिनांक २९.०९.२०२३ च्या असाइनमेंट कराराद्वारे देय कर्जाच्या संदर्भात त्याचे सर्व अधिकार, शीर्षक हेतसंबंध आणि फायदे नियुक्त केले आहेत आणि **इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक फायनान्स लि**.द्वारे कर्जदार/जामीनदार/तारणकर्ता प्रगत सुविधांमधून उद्भवलेल्या कर्जदार/ नामीनदार/तारणकर्ताद्वारे देय अतर्निहित स्थावर मालमत्ता सोबत कर्जदार/जामीनदार/तारणकर्ता यांना ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. प्रतिभूत पावत्या धारकांच्य क्षयद्याकरिता आर्सिल-रिटेल लोन पोर्टफोलिओ-०९२-ए-ट्रस्ट (आर्सिल) चे विश्वस्त म्हणून कार्यरत. त्यामुळे, या असाइनमेंटच्या संदर्भात, **इक्विटास स्मॉल फायनान्स** <mark>बँक फायनान्स लि.</mark>च्या जागी आर्सिल आता उभी आहे आणि आर्सिल कर्जदार/जामीनदार/तारणकर्ता च्या विरुद्ध सर्व आणि कोणत्याही कार्यवाहीसाठी आणि अंतर्गत अधिकार आणि फायदे लागू करण्याचा अधिकार असेल, कर्जदार/जामीनदार/तारणकर्ताने त्यांच्याकडून घेतलेल्या आर्थिक सुविधांसाठी अंमलात आणलेले आणि तयार केलेले हमी आणि सिक्यरिटी इंटरेस्टच्या अंमलबजावणीसह आर्थिक कागदपत्रे

कर्जदार/जामिनदार हे वर नमूद केलेली रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरले असून कर्जदार व सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचित करण्यात येत आहे की, खालील स्वाक्षरीकर भार्सिल चे प्राधिकृत अधिकारी सदर कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (४) सहवाचिता नियम ८ अन्वये त्यांना प्राप्त असलेल्या अधिकाराअंतर्गत खाली नमूद

| अ. | | मागणी सूचना | मालमत्तेचे वर्णन | ताबा दिनांक |
|------|-----------------------|--|---|-------------|
| क्र. | जामिनदाराचे नाव | | | |
| ۶. | श्री. संदीप कारभारी | दिनांक ०६.१२.२०१७ रोजी रु.६,८०,८९०/- | संदीप कारभारी आव्हाड यांच्या मालकीची मालमत्ता: जमीन सर्व्हे | १७.१२.२०२४ |
| | आव्हाड (कर्जदार), | (रुपये सहा लाख ऐंशी हजार आठशे नव्वद फक्त) | क्र.१८, हिस्सा क्र.४ए, क्षेत्रफळ १४५० चौ.मी., गाव | |
| | श्रीमती ताई संदीप | दिनांक ०७.१२.२०१७ पासून आनुषंगिक | आढिवली-ढोकाळी, तालुका अंबरनाथ, जि. ठाणे, आढिवली- | |
| | आव्हाड/श्री. आव्हाड | खर्चासह वरील रकमेवरील करारदराने भविष्यातील | ढोकाळी ग्रामपंचायत आणि उप-नोंदणी जिल्हा उल्हासनगर-३ | |
| | कारभारी रामजी/श्रीमती | व्याजासह, खर्च, शुल्क इ. | च्या मर्यादेत आणि नोंदणी जिल्हा ठाणे, त्यापैकी शिव दर्शन | |
| 1 | सुलाबाई कारभारी रामजी | दिनांक ०१.१२.२०२४ रोजी दिलेल्या सुविधेसाठी | निवास इमारत ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे फ्लॅट/खोली: गाव | |
| 1 | (सह-कर्जदार) (कर्ज | एकूण देय रु.२४,७२,९९५/- सर्व आनुषंगिक | आधिवली ढोकाळी, एस. क्र.१८, एच.क्र.४ए, फ्लॅट क्र.१०५, | |
| 1 | खाते क्र. | खर्च, शुल्क आणि खर्चासह, ०२.१२.२०२४ | विंग क्र.ए, क्षेत्र ३६५ चौ.फु. आणि चतुसिमा: पुर्व: विंग बी; | |
| | व्हीएलपीएचव्हीएस | पासून देय/वसुली होईपर्यंत त्यावरील पुढील | पश्चिम: नीळकंठ अपार्ट.; दक्षिण: रस्ता; उत्तर: विंग डी; | |
| | एचआय०००२५००) | व्याज आणि दंडात्मक व्याज. | उल्हासनगर-३ च्या उप-नोंदणी आणि ठाण्यातील नोंदणी | |
| | | सूचना दिनांक: ११.१२.२०१७ | जिल्ह्यात स्थित असलेल्या मालमत्तेचे सर्व भाग व खंड. | |

कर्जदार/जामीनदार/तारणकर्ताचे विशेषतः आणि सर्वसाधारणपणे जनतेला याद्वारे सावध केले जाते की वर नमूद केलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या कायदेशीर ताव्यात आर्सिल आणि सरफायसी कायदा, २००२ च्या कलम १३(१३) अंतर्गत, कर्जदार/जामीनदार/ तारणकर्ता किंवा कोणतीही व्यक्ती, ही सूचना मिळाल्यानंतर, आर्सिलच्या पूर्व लेखी संमतीशिवाय, स्थावर मालमत्तेचे विक्री, भाडेपट्ट्याने किंवा अन्यथा व्यवहार/विलक्षण व्यवहार करणार नाही आणि स्थावर मालमत्तेशी कोणतेही व्यवहार केले नातील, वर नमूद केलेल्या रकमेसाठी आर्सिलचे शुल्क आणि आनुषंगिक खर्च, शुल्क इत्यादींसह उपरोक्त रकमेवरील कराराच्या दराने भविष्यातील व्याजासह कर्जदार/जामिनदार/तारणकर्ताचे लक्षा वेधण्यात येत आहे की, प्रतिभूत मालमत्ता सोडवून घेण्यासाठी उपलब्ध वेळेसंदर्भात कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (८

सही / -, प्राधिकृत अधिकारी, ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड दिनांकः १७.१२.२०२४, ठिकाणः कल्याण . आर्सिल-रिटेल लोन पोर्टफोलिओ-०९२-ए-ट्रस्टचे विश्वस्त

तरतृद आहे.

ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. सीआयएन : यू६५९९९एमएच२००२पीएलसी१३४८८४, वेबसाईट: WWW.arcil.co.in **नोंदणीकृत कार्यालय** : दि रूबी, १०वा मजला, २९, सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०००२८.**दूर**ः+९१ २२ ६६५८ १३००/३९९

याचिकेची सूचना

जयंती प्रसाद जीवन लाल जैन क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड सीआयएन: यु६५९९०एमएच१९९४पीटीसी०८१०७६ नोंदणीकृत कार्यालय: खोली क्र.२६, हेमप्रकाश, ४था मजला, प्लॉट क्र.९०/९२, काझी सय्यद स्ट्रीट, मस्जिद बंदर, मुंबई-४००००३.

ई-मेल:jainajewellersmeerut@gmail.com, संपर्क क्र.:९८३७०८८१११

नमुना क्र.आयएनसी-२६ (कंपनी (स्थापना) अधिनियम, २०१४ चे नियम ३० नुसार) कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरीत करण्यांकरिता वृत्तपत्रात प्रकाशित करावयाची जाहिरात

केंद्र शासन (क्षेत्रिय संचालक), पश्चिम क्षेत्र यांच्या समक्ष कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १३ चे उपकलम (४) आणि कंपनी (स्थापना) अधिनियम २०१४ चे नियम ३० चे उपनियम (५) चे खंड (अ) प्रकरणात

जयंती प्रसाद जीवन लाल जैन क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, यांचे नोंदणीकृत कार्यालयः खोली क्र.२६, हेमप्रकाश, ४था मजला, प्लॉट क्र.९०/९२, काझी सय्यद स्ट्रीट, मस्जिद बंदर, मुंबई-४००००३.

....याचिकाकत

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **बुधवार, ११ डिसेंबर, २०२४** झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर विशेष ठरावानुसार कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय **महाराष्ट्र राज्यातून उत्तर प्रदेश राज्यात,** कंपनी निबंधक, उत्तर प्रदेश यांच्या न्यायकक्षेत थलांतरीत करण्याकरिता कंपनीचे मेमोरॅण्डम ऑफ असोसिएशनचे बदलण्याच्या निश्चितीसाठी कंपनीद्वारे क्षेत्रिय संचालक, पश्चिम क्षेत्र, मुंबई, महाराष्ट्र यांच्याकडे कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३ अंतर्गत **जयंती प्रसाद जीवन लाल जैन क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड**, गाचिकाकर्ता यांनी अर्ज करण्याचे योजिले आहे.

कोणा व्यक्तिच्या हितास कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयाच्या नियोजित बदलामुळे काही बाध येत असल्यास त्यांनी त्यांच्या हिताचे स्वरूप व विरोधाचे कारण नमूद केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे ऱ्यांचे आक्षोप रजि. पोस्टाने किंवा गुंतवणूकदार तक्रार नमुना भरून **एमसीए-२१ पोर्टल** www.mca.gov.in) वर सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून **१४ (चौदा) दिवसांच्या** आत क्षेत्रिय संचालक, पश्चिम क्षेत्र, एव्हरेस्ट, ५वा मजला, १००, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई-४००००२, महाराष्ट्र येथे पाठवावी तसेच एक प्रत याचिकाकर्ता कंपनीला त्यांच्या खाली नमुद नोंदणीकृत कार्यालयात पाठवावे.

नोंदणीकृत कार्यालय: खोली क्र.२६, हेमप्रकाश, ४था मजला, प्लॉट क्र.९०/९२, काझी सय्यद स्ट्रीट, मस्जिद बंदर, मुंबई-४००००३.

अर्जदारांच्या वतीने व करिता जयंती प्रसाद जीवन लाल जैन क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडकरिता सही/

रोहित कुमार जैन

डीआयएन:००६११७५१

संचालक

ठिकाण: मुंबई दिनांक: २१.१२.२०२४

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (परसेवा)

बृहन्मुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित., मुंबई १९२, सौरभ बिल्डींग, मोदी इस्टेट, लाल बहादर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर पोलीस स्टेशन समोर, घाटकोपर (प.), मुंबई-४०० ०८६

जाहीर नोटीस

अमरसेवा सहकारी पतपेढी मर्यादित नारीसेवा सदन रोड, जांभळीपाडा, असल्फा व्हिलेज, घाटकोपर (प.), मुंबई-४०० ०८४

Assistant Registrar Co-op Societies Recovery, Ghatkopar (w) Gen. Outward No. 4687 Date 21/12/2024 अर्जदार

जाब देणार

खालील दर्शविलेल्या जाब देणार यांना नोटीस देण्यात येते की, थकीत कर्जाविषयी अर्जदार पतसंस्थेने दाखल केलेल्या अर्जाबाबत आपले म्हणणे सादर करणेसाठी आपणास उपलब्ध गत्त्यावर नोटीस देण्यात आली होती. तथापि सदर पत्त्यावर आपण राहत नसल्याने तसेच आपला सध्याचा पत्ता उपलब्ध नसल्याने सदर नोटीसद्वारे आपणास एक शेवटची संधी देण्यात येत असून दिनांक : ०८/०१/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता आपण स्वत: अथवा आपल्या विकलामार्फत या कार्यालयात हजर राहन आपले म्हणणे सादर करावे. सदर दिवशी आपण हजर न राहिल्यास तुमच्या गैरहजेरीत अर्जाची चौकशी करण्यात येऊन या कार्यालयात एकतर्फी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, याची आपण नोंद घ्यावी.

| अ. क्र. | जाब देणाऱ्याचे नाव | अर्ज दाखल दिनांक | दावा क्रमांक | दावा रक्कम रू. | जाब देणार क्र |
|------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | श्री. सौ. हर्षा प्रशांत घोसाळकर यांचे जामीनदार | | | | |
| ٤. | श्रीमती जयश्री मधुकर घोसाळकर | १३/११/२०२४ | १३७५ | १०,१०,९३०=०० | 7 |
| ۶. | श्री. प्रमोद अर्जुन भैप | १३/११/२०२४ | १३७५ | १०,१०,९३०=०० | ş |
| ą. | श्री. संकेत शरद कोणकर | १३/११/२०२४ | १३७५ | १०,१०,९३०=०० | Х |
| | | | | | |
| ٧. | सौ. रेखा शरद कारंडे | १३/११/२०२४ | १३७२ | ७७,२७९=०० | १ |
| ч. | श्री. हर्षद शरद कारंडे | १३/११/२०२४ | १३७२ | ७७,२७९=०० | 7 |
| ξ. | श्री. अखिलेश राघव पांडे | १३/११/२०२४ | १३७२ | ७७,२७९=०० | ş |
| | | | | | |
| 9. | श्री. बाळु छबुराव महाकाळ | १३/११/२०२४ | १३७४ | ५९,५२९=०० | १ |
| ८. | श्री. तुकाराम महादेव कुलवडे | १३/११/२०२४ | १३७४ | ५९,५२९=०० | 2 |
| ۲. | श्री. जनार्धन रोहीदास मोहीते | १३/११/२०२४ | १३७४ | ५९,५२९=०० | ş |

ही नोटीस आज दिनांक २१/१२/२०२४ रोजी माझे सही व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिली आहे.



सहाय्यक निबंधक. सहकारी संस्था (परसेवा) बृहमुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, मुंबई.

सही/-

नवी मंबई महानगरपालिका

निविदा स्चना क्र.नम्मपा/श.अ./311/2024-2025

| चणसोली विभागातील घणसोली गावातील विभाग कार्यालयाजवळील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे चणसोली विभागातील विविध ठिकाणी नामकरण फलक बसविणे चणसोली विभागातील प्रभाग क्र.25 येथील परिसराचे सुशोभिकरण व सुधारणा करणे घणसोली विभागातील सेक्टर-1,2 & 3 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील अंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचिशल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | अ. | कामाचे नांव | अंदाजपत्रकिय |
|--|------|--|--------------|
| वार्यालयाजवळील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे चणसोली विभागातील विविध ठिकाणी नामकरण फलक बसविणे उ धणसोली विभागातील प्रभाग क्र.25 येथील परिसराचे सुशोभिकरण व सुधारणा करणे घणसोली विभागातील सेक्टर-1,2 & 3 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | क्र. | कामाय नाय | रक्कम (रू.) |
| कार्यालयाजवळील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे 2 घणसोली विभागातील विविध ठिकाणी नामकरण फलक बसविणे 3 घणसोली विभागातील प्रभाग क्र.25 येथील परिसराचे सुशोभिकरण व सुधारणा करणे 16,76,80% 4 परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे 5 परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे 5 परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे 5 परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे 6 परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे 16,35,240 6 व पंचिशल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | 1 | घणसोली विभागातील घणसोली गावातील विभाग | 00.07.070/ |
| प्राप्तां विभागातील प्रभाग क्र.25 येथील परिसराचे सुशोभिकरण व सुधारणा करणे परिसराचे सुशोभिकरण व सुधारणा करणे धणसोली विभागातील सेक्टर-1,2 & 3 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे धणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे धणसोली विभागातील अंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व त्रशोभिकरण विषयक कामे करणे 6 व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | · | कार्यालयाजवळील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे | 20,07,372/- |
| फलक बसविणे 3 घणसोली विभागातील प्रभाग क्र.25 येथील परिसराचे सुशोभिकरण व सुधारणा करणे 5 घणसोली विभागातील सेक्टर-1,2 & 3 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे 5 घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे 6 घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील विभयक कामे करणे 7 घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | 2 | घणसोली विभागातील विविध ठिकाणी नामकरण | 21 15 209/ |
| परिसराचे सुशोभिकरण व सुधारणा करणे घणसोली विभागातील सेक्टर-1,2 & 3 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील 16,35,240 विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | | फलक बसविणे | 21,15,506/- |
| परिसराचे सुशाभिकरण व सुधारणा करणे घणसोली विभागातील सेक्टर-1,2 & 3 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण 16,73,77! विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण 16,35,240 विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विकारण व सुशोभिकरण विकारण व सुशोभिकरण व सुशोभिक | 3 | घणसोली विभागातील प्रभाग क्र.25 येथील | 16 76 900/ |
| 4 परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण 16,73,775 विषयक कामे करणे 5 परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण 16,35,240 विषयक कामे करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे 6 परिसराची विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व दुशोभिकरण विषयक कामे करणे | | परिसराचे सुशोभिकरण व सुधारणा करणे | 10,70,609/- |
| पारसराचा सुधारणा करण व सुशामकरण 16,73,775 विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण 16,35,240 विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | | घणसोली विभागातील सेक्टर-1,2 & 3 येथील | |
| घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण 16,35,240 विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | 4 | परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण | 16,73,775/- |
| परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण 16,35,240 विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा 6,59,500 करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | | विषयक कामे करणे | |
| विषयक कामे करणे घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा 16,59,50! करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | | घणसोली विभागातील सेक्टर -7 येथील | |
| घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | 5 | परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण | 16,35,240/- |
| 6 व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा 16,59,50! करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | | विषयक कामे करणे | |
| करणे व मुशोभिकरण विषयक कामे करणे | | घणसोली विभागातील आंबेडकरनगर, गौतमनगर | |
| | 6 | व पंचशिल नगर येथील परिसराची सुधारणा | 16,59,505/- |
| the state of the s | | करणे व सुशोभिकरण विषयक कामे करणे | |
| | | घणसोली विभागातील सेक्टर -6 येथील | |
| 7 परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण 16,51,068 | 7 | परिसराची सुधारणा करणे व सुशोभिकरण | 16,51,068/- |
| विषयक कामे करणे | | विषयक कामे करणे | |

निविदा पुस्तिका ई-टेंडरिंग (E-Tendering) संगणक प्रणालीच्या https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर व नम्मपाच्या <u>www.nmmc.gov.in</u> या संकेतस्थळावर दि.23 /12/2024 रोजी प्राप्त होतील. निविदेचे सादरीकरण न्तस्थळावर Online करण्याचे आहे. Online निविदा सादरीकरणाच्या प्रिकयेतील कोणत्याही तांत्रिक अडचणीसाठी सदर संकेतस्थळावर दिलेल्या हेल्प डेस्क नंबरवर संपर्क करावे.

कोणतीही निविदा स्विकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार मा.आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी राखून ठेवलेला आहे.

कार्यकारी अभियंता (घणसोली)

जाहीर सूचना

माद्ये अशील श्रीमती अपर्णा राजेंद्र नाईक, त्यांचे पती राजेंद्र भास्कर नाईक यांचे २०.०७.२०२१ रोजी निधन झाले, ते श्री स्वामी समर्थ कृपा को-ऑप.हौ.सो.लि., पितांबर लेन, माहिम पश्चिम सी.एस. क्र.८०२, माहिम विभाग, मुंबई-४०००१६ येथील फ्लंट क्र.६०१ व ६०२ या मालमत्तेचे फ्लॅटचे मालक आहेत आणि फ्लॅट क्र.५०१ ह जागा त्यांची पत्नी श्रीमती अपर्णा राजेंद्र नाईव यांच्यासह संयुक्त आहे.

मयत स्वर्गीय श्री. राजेंद्र भास्कर नाईक यांच्या पश्चात पुढील कायदेशीर वारसदार अर्थात १ अपर्णा राजेंद्र नाईक (पत्नी), २) आशिर्वाद राजेंद्र नाईक, ३) सुभांकर राजेंद्र नाईक हे हिंदु वारस कायद्यानुसार आहेत.

जर कोणा व्यक्तीस उपरोक्त फ्लॅट/मालमत्तेत काही दावा, अधिकार, हक, शेअर असल्यास त्यांनी माझ्याकडे किंवा सदर सोसायटीच्या वर नम केलेल्या पत्त्यावर लेखी स्वरुपात सदर सूचन प्रकाशनापासून १५ दिवसात कळवावे. अन्यथ <u> होणताही दावा नाही असे समजले जाईल.</u>

सही/-आर.आर. गुप्ता वकील उच्च न्यायालय २रा मजला. लॉयर्स चेंबर्स. भास्कर इमारत.

ए.के. मार्ग, वांद्रे (पुर्व), मुंबई-४०००५१.

situated) on Monday, October 14, 2024.

ॲिक्सिस वॅंक लिमिटेड (सीआयएन: एल६५२१०जीने१९२३पीएलसी०२०७६९) कॉर्पोरेट कार्यालय: एक्सिस हाऊस, संरचित मालमत्ता गट, सी-२, वाडिया इंटरनेशनल सेन्टर, पांडुरं बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई-४०००२५. www.axisbank.com

(सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ८(१) सहवाचिता परिशिष्ट ४ नुसार) **ज्याअर्थी,** खालील स्वाक्षरीकर्ता हे सिक्युरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एनफोर्स ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ (५४/२००२) (सरफायसी कायदा) अंतर्गत **ॲक्सिस बँक लिमिटेड**चे प्राधिकृ अधिकारी आहेत आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ सहवाचिता कलम १३(९२ अन्यये असर्तत्या अधिकाराअर्तागंत त्यांनी सराभयासी कायद्याच्या कलम १३(२) अन्यये दिनाक ०६ चून, २०९१ रोजीस संदर्भ क्र.ऑक्सिसबी/आरसीडब्ल्यु/५२/२०११–१२ नुसार कर्जदार/जामिनदार/तारणकर्ता/संचालक अर्थात सूचना क्र.१. जय मेकिनीकल प्रा.लि., २. श्री. रनछोडभाई बबलदास पांचाळ, ३. श्री. नरेश रनछोडभाई पांचाळ व ४. हर्षद **ानछोडभाई पांचाळ** यांना सदर मागणी सूचनेत नमुद केलेली रक्कम सदर सूचनेच्या प्राप्ती तारखेपासून ६० दिवसात **३१ मार्च,** २०११ रोजी देय रक्कम रु.४,३०,५१,४३२े.५१/ – (रुपये चार कोटी तीस लाख एकावन्न हजार चारशे बत्तीस आणि पैर **कावन्न फक्त)** तसेच रक्कम जमा होईपर्यंत करारदराने उर्वरित मासिकासह दंडात्मक व्याज जमा करणेबाबत मागणी सूचन

कंपनी याचिका क्र.३४०/२०११ मधील अधिकृत परिसमापक अहवाल क्र.७८/२०२४, अंतरिम अर्ज (एल) क्र.२१०१०/२०२४ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाद्वारे मंजूर दिनांक २५ <mark>ऑक्टोबर, २०२४</mark> रोजीच्या आदेशानुसार दिनांक **१८ डिसेंबर, २०२**४ रोजी अर्थात आज अधिकृत परिसमापकाद्वारे ग्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द तारण मालमत्तेचा

कर्जदार/जामिनदार/तारणकर्ता यांनी वर नमूद केलेली रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरले असून कर्जदार/जामिनदार, तारणकर्ता व सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचित करण्यात येत आहे की, खालील स्वाक्षरीकर्त्यांनी सदर कायद्याच्या कलग् १३ चे उपकलम (४) सहवाचिता सदर अधिनियमाच्या नियम ८ अन्वये त्यांना प्राप्त असलेल्या अधिकाराअंतर्गव लमत्तेचा **वास्तविक ताबा १८ डिसेंबर, २०२४** रोजी घेतला आहे.

कर्जदार/जामिनदार/तारणकर्ता (विशेषतः वर नमूद् केलेले आणि सर्वसाधारणपणे जनतेला याद्वारे सावध केले जाते की, येथे नमूद केलेल्या स्थावर मालमत्तेमध्ये कोणत्याही तृतीय पक्षाचे हक्क किंवा स्वारस्य निर्माण करू नये आणि मालमत्तेशी नेणतेही व्यवहार केले जातील. वर नमूद केल्याप्रमाणे आमच्या मागणी सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या रकमेसाठी **ॲक्सिस** बँक लिमिटेडचे शुल्क, त्यावरील पुढील व्याजासह करारानुसार दर, खर्च, शुल्क, इतर पैसे पूर्ण भरणे किंवा वसूल

कर्जदार/सह-कर्जदार/जामिनदार/तारणकर्ताचे लक्ष वेधण्यात येत आहे की, प्रतिभूत मालमत्ता सोडवून घेण्यासाठी उपलब्ध वेळेसंदर्भात कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (८) ची तरतूद आहे

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

प्लॉट क्र.डी-७/७, रोड क्र.३३, वागेल इस्टेट, ठाणे (पश्चिम) असलेला औद्योगिक भुभागाचा तो सर्व भाग व खंड तसेच

तेथे असलेल्या इमारत, फॅक्टरी शेड, संरचना. दिनांक: १८ डिसेंबर, २०२४, ठिकाण: ठाणे सही/- प्राधिकृत अधिकारी, ॲक्सिस बँक लिमिटेड

PRE-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT, CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT & THE LETTER OF OFFER JNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THÉ ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

PASUPATI FINCAP LIMITED

CIN: L70100HR1996PLC033099 Registered office: Village Kapriwas, Dharuhera, District Rewari, Haryana-123106 Phone: 01274-267257-58; Website: www.pasupatifincap.co.in; Email Id: cs@pasupatitextiles.com;

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 12,22,000 (Twelve Lakh Twenty Two Thousand) EQUITY SHARES OF ₹10 EACH FROM THE SHAREHOLDERS OF PASUPATI FINCAP LIMITED. (HEREINAFTER REFERRED TO AS ("PFL/"TARGET COMPANY"/"TC" BY MR. DINESH PAREEKH (ACQUIRER), PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3(1) AND REGULATION 4

OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS"). This Pre-Offer Public Announcement, Corrigendum to the Detailed Public Statement & the Letter of Offer is being issued by Fintellectual Corporate Advisors Private Limited ('Manager to the Offer'), for and on behalf of Mr. Dinesh Pareekh ('Acquirer') pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulations, 2011, as amended ['SEBI (SAST) Regulations,'], in respect of the Open Offer to acquire 12,22,000 (Twelve Lakh Twenty Two Thousand) Equity Shares of ₹10/- each of Pasupati Fincap Limited, (Hereinafter Referred to as ("PFL"Target Company"/"TC") representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was published in all editions of the Financial Express

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE OFFER.

(English) and Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is

- The Offer Price is ₹10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share. The Offer price will be paid in Cash in accordance with Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulation, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS and Letter of the PA (SAST) Regulation (SAST) RegulatiOffer. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommended that the Offer Price of ₹10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations 2011. The recommendation of the IDC was published on December 20, 2024 in all editions of the Financial Express (English) Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated). Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.
- The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. Further, there has been no competitiv bid to this Offer.
- The Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) (hereinafter collectively referred to as "Letter of Offer" dated December 11, 2024, was mailed on December 17, 2024 through electronic means to all the Public Shareholders of the Targe Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on December 17, 2024, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares
- and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on December 10, 2024. ('Identified Date'). The Letter of Offer is also available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) and is available on the Manager to Offer's website (<u>www.fintellectualadvisors.com</u>) and the Shareholders can also apply by downloading the form of acceptance from the websites as
- mentioned above. Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement" at page 20 of the Letter of Offer in relation to inter alia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. A summary of procedure for tendering Equity Shares in the Open Offer is set out below:
- a. In Case of Equity Shares held in dematerialized form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.2 of the Letter of Offer.
- b. In case of Equity Shares held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.3 of the Letter of Offer along with Form SH-4
- c. In case of non-receipt of the Letter of Offer: Public Shareholders may (i) download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) and can apply by using the same; or (ii) obtain a physical copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares. Alternatively, such Public Shareholders can download the soft copy of the Letter of Offer from the SEBI website www.sebi.gov.in as well as from the Manager to the Offer website www.fintellectualadvisors.com. Alternatively, in case of non receipt of the Letter of Offer. Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Open Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares being tendered and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by BSE before the Offer Closing Date.
- The Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 21, 2024 in accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. All observations from SEBI via letter number SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/P/OW/2024/37723/1 dated December 06, 2024, which was received on December 06, 2024, have been duly incorporated in the Letter of Offer, according to Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011
- There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on October 07, 2024, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
- As of the date of this Offer Opening Public Announcement, no statutory approvals were required by the Acquirer to complete this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the Tendering Period, the Offer shall be subject to all such statutory approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals
- Revised Schedule of Activities:

| Tentative Schedule of Activities | Original Schedule of Activities Day and Date | Revised Schedule of Activities (Day and Date)* |
|--|---|---|
| Date of the Public Announcement | Monday, October 07, 2024 | Monday, October 07, 2024 |
| Date of publication of the Detailed Public Statement | Monday, October 14, 2024 | Monday, October 14, 2024 |
| Last date of filing of the draft Letter of Offer with SEBI | Monday, October 21, 2024 | Monday, October 21, 2024 |
| Last date for a Competing Offer [^] | Tuesday, November 05, 2024 | Tuesday, November 05, 2024 |
| Identified Date# | Thursday, November 14, 2024 | Tuesday, December 10, 2024 |
| Last date by which Letter of Offer will be dispatched | Friday, November 22, 2024 | Tuesday, December 17, 2024 |
| to the Shareholders | | |
| Last date by which an independent committee of the | Tuesday, November 26, 2024 | Friday, December 20, 2024 |
| Board of Target Company shall give its recommendation | | |
| Last date for revising the Offer Price/ Offer Size | Wednesday, November 27, 2024 | Friday, December 20, 2024 |
| Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, | Thursday, November 28, 2024 | Monday, December 23, 2024 |
| status of statutory and other approvals in newspaper | | |
| Date of commencement of tendering period | Friday, November 29, 2024 | Tuesday, December 24, 2024 |
| (Offer Opening Date) | | |
| Date of expiry of tendering period (Offer Closing Date) | Thursday, December 12, 2024 | Tuesday, January 07, 2025 |
| Date by which all requirements including payment of | Friday, December 27, 2024 | Tuesday, January 21, 2025 |
| consideration would be completed | | |
| Notes: | | |

The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various regulatory authorities and may have to be revised accordingly throughout this document. # Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and the parties to the Share Purchase Agreement) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer. There was no competing offer

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS

This important information is pursuant to Letter of Offer dated December 11, 2024, which was mailed on December 17, 2024 through electronic means to all the Public Shareholders of the Target Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on December 17, 2024, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on Decembe 10, 2024. ('Identified Date'). The following errors were noted in the Letter of Offer, and the same are being corrected as under:

1) Correction to the Offer Closing Date: The Offer Closing Date (i.e., the date of expiry of the tendering period) was erroneously mentioned as January 07, 2024 on the cover page of the Letter of Offer

ne correct Offer Closing Date is January 07, 2025 2) Correction to the STD Code of Telephone Number:

The STD code of the telephone number of the Manager to the Offer on cover page was erroneously mentioned as 1120 in the Lette of Offer while the correct STD code is 0120.

All other terms and conditions of the Offer, as mentioned in the Letter of Offer, remain unchanged The Acquirer accepts the responsibility for the information contained in this Advertisement and for the obligations of the Acquirer as laic down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. This Advertisement will also be available on the website of SEBI i.e. <u>www.sebi.gov.in</u>.

Issued by the Manager to the Open Offer



Fintellectual Corporate Advisors Private Limited Corporate Off.: B-20, Second Floor, Sector 1, Noida 201301 Tel No.: +91-0120-4266080 Website: www.fintellectualadvisors.com Email Address: info@fintellectualadvisors.com Contact Person: Mr. Amit Puri SEBI Registration Number: MB/INM000012944

Place: New Delh Date: 21.12.2024

Validity: Permanent

CIN: U74999DL2021PTC377748

Dinesh Pareekh

जा.क्र-नम्मपा/जसं/जाहिरात/752/24

नवी मुंबई महानगरपालिका

निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कूर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400059

प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत. निम्नांकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है।

शाखा कार्यालय : शोरूम नं. 301, तृतीय तल, श्री राम आर्केड, पुराना म्यूनिसिपल नं. 74, राजपुर रोड, देहरादून, पिन— 248009 अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को माँग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर

चूँकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।

| ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। | | | | |
|--|---|--|--|----------------|
| | ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता हे नाम / ऋण खाता संख्या | संपत्ति का विवरण/ अधिग्रहण की तिथि | माँग सूचना की तिथि / माँग सूचना में राशि (रु.) | शाखा का नाम |
| पिंकी | ज (ऋणकर्ता), ो (सह—ऋणकर्ता), DEH00001504373 | प्लॉट संख्या 80 ए खसरा संख्या 66 जो वेक पंजारा में बैरून परगना तहसील और जिला सहारनपुर दर आबादी आशिक वाटिका कॉलोनी सहारनपुर 247001 सहारनपुर—उत्तर प्रदेश 247001 में स्थित है (संदर्भ लैन संख्या LHDEH00001504373), इस प्रकार परिसीमित है :— उत्तर : हरपाल की भूमि / 47 फीट, दक्षिण : गुलाब सिंह का प्लॉट / 53.6 फीट, पूर्व : श्रीमती सुदेश रानी की भूमि, पश्चिम : सड़क 8 फीट / अधिग्रहण की तिथि— 19—दिसंबर—24 | 19-04-2024 ₹. 13,25,384 / - | देहरादून – बी |
| पिंकी LHD | ज (ऋणकर्ता), ो (सह–ऋणकर्ता), DEH00001505197 | प्लॉट संख्या 80 ए खसरा संख्या 66 जो वेक पंजारा में बैरून परगना तहसील और जिला सहारनपुर दर आबादी आशिक वाटिका कॉलोनी सहारनपुर 247001 सहारनपुर—उत्तर प्रदेश 247001 में स्थित है (संदर्भ लैन संख्या LHDEH00001505197), इस प्रकार परिसीमित है :— उत्तर : हरपाल की भूमि / 47 फीट, दक्षिण : गुलाब सिंह का प्लॉट / 53.6 फीट, पूर्व : श्रीमती सुदेश रानी की भूमि, पश्चिम : सड़क 8 फीट / अधिग्रहण की तिथि— 19—दिसंबर—24 | 19−04−2024 ₹. 47,229.34 / − | देहरादून – बी |
| | | | | |

संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा। प्राधिकत अधिकारी.

दिनाँक : 23 दिसंबर 2024 स्थान : सहारनपूर

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

की परिसंपत्तियों हेत् आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया), विनियमावली 2016 के विनियम 37ए के अंतर्गत सचना ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) की सुगमतापूर्वक वसुल न की जा सकनेवाली

ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत)

(सीआईएन: U64120DL1986PLC026209)

(ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 ("आईबीसी") के अंतर्गत असाइनमेंट)

परिसंपत्तियों के असाइनमेंट के लिए निवेशकों से भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 37ए के अंतर्गत "जैसी है जहाँ है, जैसी है जो है, वहां जो कुछ भी है तथा बिना किसी उपाय आधार" पर प्रस्ताव निमंत्रित किए जाते हैं।

असाइनमेंट के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तृत हैं सगमतापर्वक वसल न की जा सकनेवाली परिसंपत्तियों की सची

ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड विरुद्ध दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य 2022 की मध्यस्थता संख्या ४९५०–४९५३ के अंतर्गत सभी अधिकारों व हितों का असाइनमेंट, जो वर्तमान में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के समक्ष लंबित है, जिसमें डीएमआरसी की दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर विभिन्न तलों / स्तरों पर वाणिज्यिक स्थान / क्षेत्र के लाइसेंसीकरण के लिए ओवरनाइट द्वारा डीएमआरसी के पास जमा की गई प्रतिभूति जमा राशि की वापसी और रु. 23,600/– की भागीदारी शूल्क की वापसी, रु. 30,00,000 / – की श्रमिक लागत, लंबित और भविष्य के ब्याज और मुकदमेबाजी की लागतों की वापसी के लिए कुल रु. 6,35,06,937 / – की राशि का दावा किया गया है। समय-सीमाएं निम्नलिखित अनुसार होंगी :--

| J | |
|--|------------|
| ईओआई के निमंत्रण के प्रकाशन की तिथि | 23.12.2024 |
| पात्रता प्रलेख, ईओआई तथा रु. 50,000/— की ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 06.01.2024 |
| अर्हक प्रतिभागियों की घोषणा की तिथि | 08.01.2025 |
| निरीक्षण / सम्यक् तत्परता की अंतिम तिथि | 19.01.2025 |
| प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 22.01.2025 |
| | |

असाइनमेंट. आईबीसी 2016 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित इसके प्रावधानों तथा प्रक्रिया जानकारी प्रलेख, के अधीन होगा।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रक्रिया जानकारी प्रलेख देखें, जिसे cirp.overnite@gmail.com पर एक ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। तरुण जैन (परिसमापक)

> दूरभाष : +91-9810265565 ईमेल ≔ cirp.overnite@gmail.com पता :- 1001, विक्राँत टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली- 110008

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोडः 380009 कब्जा स्चना शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिभिटेड ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम, जयप्र राजस्थान ३०२००१

जबकि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के तहत और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुरक्षा के नियम 3 के साथ ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने उधारकर्ता को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता से भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। उक्त उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम आर की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उल्लिखित तिथि पर यहां वर्णित संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन संबंधित तिथि से भविष्य के ब्याज, लागत और शुल्क के साथ यहां निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, सुरक्षा का विवरण, मांग नोटिस की तारीख, दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख यहां नीचे दी गई है

1) उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि 4) मांग सूचना की तारीख, 5) दावा की गई राशि भारतीय रूपये में 6) प्रतिभृतियों का विवरण 7) कब्जा की तिथि

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नामः राज लक्ष्मी साड़ियां, अर्जुन लाल कुमावत, सुनीता कुमावत सभी भीः बापू बाजार चोमू जयपुर, चोमू — 303702 राजस्थान और सभी भी दुकान संख्या पर 1 बागसियो की मोरी चोमू जिला जयपुर चोमू – 303702 योजना जयपुर – 302012 में स्थित जेएस कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर और सभी 41 रतन बिहार कॉलोनी वार्ड नंबर 09 चोमू टीएच– चोमू जिला– जयपुर चोमू– 303702 राजस्थान में और सभी वार्ड नंबर 09 रतन विहार कॉलोनी टीएच— चोमू जिला— जयपुर चोमू— 303702 राजस्थान में, ऋण खाता संख्या 2953624, 15251432, ऋण राशिः रु. 3500380 / —(रुपये पैंतीस लाख तीन सौ अस्सी मात्र) ऋण संख्या 2953624 के तहत और रु. 590000 / — (पांच लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) ऋण संख्या 15251432 के अंतर्गत, मांग सूचना दिनांक:16—08—2024य दावा की गई राशिः 09.08.2024 तक 1354339 / — रूपये (शब्दों में तेरह लाख चौवन हजार तीन सौ उनचालीस रूपये मात्र) तथा वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदिय सुरक्षा का विवरण**ः** संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, दुकान नं. 1, ग्राउंड फ्लोर, जे एस कॉम्प्लेक्स, बगासियो कीमोरी चोम्, जिला— जयपूर, राजस्थान 303702, **कब्जे की तिथिः** 18.12.2024.

उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ताओं का नामः पवन कुमार प्रजापत, मीना देवी सभी पते**:** 54 55 इंद्राकॉलोनी जयपुर रोड किशनगढ़ मदनगंज किशनगढ़, राजस्थान—305801 ऋण खाता संख्या 14260118, ऋण राशिः रु. 2250000 /— (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) ऋण संख्या 14260118 के अंतर्गत. मांग नोटिस दिनांक: 13—09—2024. दावा की गई राशि: रु. 19.91.327 /— (शब्दों में रुपये उन्नीस लाख इक्यावने हजार तीन सौ सत्ताईस मात्र) 10.09.2024 तक और वास्तविक वसली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय लागत और शल्क आदि सरक्षा का विवरण— ।: इंद्रा नगर एक्सटेंशन आवासीय योजना. मदनगंज और तहसील और जिला अजमेर राजस्थान में स्थित प्लॉट नंबर 54 की संपत्ति का वह परा टकडा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज - 50 वर्ग गज = 100 वर्ग गज है। सीमा—उत्तर—प्लॉट नंबर 55, दक्षिण–प्लॉट नंबर 53, पूर्व–प्लॉट नंबर 61, पश्चिम–रोड और अचल संपत्ति का विवरण / सुरक्षा– ।|— इंद्रा नगर एक्सटेंशन आवासीय योजना, मदनगंज और तहसील और जिला अजमेर राजस्थान में स्थित प्लॉट नंबर 55 की संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज , 50 वर्ग गज = 100 वर्ग गज है। सीमा—उत्तर—प्लॉट नंबर 56, दक्षिण—प्लॉट नंबर 53, पूर्व—प्लॉट नंबर 60, पश्चिम-रोड कब्जे की तारीख: 17-12-2024.

उधारकर्ता का नाम एवं विवरण सह—उधारकर्ता: निर्बान जेम्स, मुमताज ए, आबिद अली, अब्दुल रशीद, मोहम्मद जाहिद अली, लियाकत अली, मुमताज एच, सभी एटी पर भी: 2 / सीएचएच / 10 आर एच बी भूझ बस्ती नाहा कनक शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान—302016, और सभी यहाँ पर भी : प्लॉट नंबर ए—268 एवं 269 संजय नगर भट्टा बस्ती शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान — 302016 और ए—268 संजय नगर भट्टा बस्ती शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान — 302016 ऋण खाता संख्या 2340054 / 16567410, ऋण राशिः ऋण संख्या 2340054 के अंतर्गत रु.2000000 / — (केवल बीस लाख रुपये), ऋण संख्या 16567410 के अंतर्गत रु.310000 / — (केवल तीन लाख दस हजार रुपये), माग सचना दिनाकः 26—08—2024, राशि दावा किया गया राषि 26.08.2024 तक रु. 12,77,551.16 / — (शब्दो मे रु. बारह लाख सत्तहत्तर हजार पाच र इक्यावन और सोलह पैसे मात्र) तथा वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शूल्क आदिय सुरक्षा का विवरण :संजय नगर, बट्टा बस्ती, वार्ड नं. 65 जयपुर, राजस्थान में स्थित प्लॉट नं. ए—268 और 269 की पूरी संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 100.00 वर्ग यार्ड, जयपूर नगर निगम द्वारा श्री अब्दूल रशीद खा और श्रीमती मुमताज बानो के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत लीज डीड संख्या—68 के अनुसार, दस्तावेज संख्या २००८०५२०१०३१२, पुस्तक संख्या १, खंड संख्या ५८१, पुष्ठ संख्या पर। ५२ दिनांक १७—१०५० को। सीमाः उत्तर—अन्य प्लॉट, दक्षिण—रोड, पूर्व—अन्य प्लॉट, पश्चिम—अन्य प्लॉट। कब्जे की तिथिः 18.12-2024 ।

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नामः मोहम्मद नवाब कुरैशी, मोहम्मद फैजान कुरैशी, आसमा बेगम, सभी का पताः 5 उदय नगर कलवाड़ रोड जोतवाड़ा, जयपुर — 302012 राजस्थान ऋण खाता संख्य 16608726, ऋण राशिः रु. 7500000 /— (पहत्तर लाख रुपए मात्र) ऋण खाता संख्या 16608726 के तहत, मांग नोटिस की तिथिः 13—08—2024, दावा की गई राशिः रु. 68,45,927.10 /— (शब्दों में रुपए अडसट लाख पैंतालीस हजार नौ सौ सत्ताईस तथा दस पैसे मात्र) 13.08.2024 को तथा वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत तथा प्रभार आदिय सुरक्षा का विवरणः प्लॉट संख्या 05, स्कीम उदय नगर, गोल्डन बेकरी के पास, जोतवाड़ा, जयपुर, राजस्थान का समस्त टुकड़ा तथा पार्सल माप 191.66 वर्ग गज या 1724.94 वर्ग फीट, उक्त संपत्ति के संबंध में जेडीए, जयपुर द्वारा श्रीमती आसमां बेगम के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत लीज डीड, साइट प्लान दस्तावेज संख्या 1491, बुक संख्या I, खंड संख्या 91 पुष्ठ संख्या 91 पुर दिनांक 02/04/2002 के साथ। गिरवी रखी गई संपत्ति पूर्व – शिवाजी नगर, पश्चिम – रोड 30 चौड़ा, उत्तर – पी. नं. 6, दक्षिण – अन्य संपत्ति। **कब्जे की तिथिः** 18–12–2024।

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ता का नाम एवं विवरण : अंजलि स्टील फर्निचर, राकेश कुमार, अंजलि, सभी यहांः चिपू कमोहल्ला न्यू सिटी किशनगढ़, राजस्थान—305801 और सभी यहांः प्लॉट नं. 65, खाता न 895 / 96 शिव जी नगर मदनगंज तहसील, किशनगढ, राजस्थान—305801 के भाग पर स्थित और सभी मिर्जाबावडी रोड शास्त्री नगर, किशनगढ राजस्थान—305801 और सभी 6िमर्जा बावडी रोड शास्त्री पर र्भ नागर, किशनगढ़ राजस्थान–305801, ऋण खाता संख्या 30486789, ऋण राशिः रु.4385000/– (रुपये तैंतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 30486789 के अंतर्गतय मांग नोटिस दिनांक: 16—08—2024य दावा की गई राशिरू रु.44,38,062/— (शब्दों में रुपये तैतालीस लाख अड़तीस हजार बासट मात्र) 09.08.2024 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदिय सुरक्षा का विवरण— प्लॉट नंबर 65 का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, जो भाग में स्थित है खसरानो.895 / 96, शिवाजी नगर, मदनगंज, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर, प्रवेश क्षेत्रफल 144 वर्ग गज। सीमा–उत्तर–श्री लाल चंद का मकान, दक्षिण–पेन सिस्टर का मकान, पूर्व–वाइड रोड, पश्चिम–रोड. **कब्जे की तारीखः** 17–12–2024.

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नामः मां सती एल्युमिनियम फर्नीचर, मोहनी देवी, मोटा राम, सभी :01 क्षत्रिय का मोर्चा बालोतरा, राजस्थान—344022 और सभी यहां: दुकान संख्या 13, जे ऑफ खासरानो में स्थित 1039/209, जेरला रोड ऑफ बालोतरा, राजस्थान—344022 और सभी यहां: चौकडिया की ढाणी गोल स्टेशन गो आर एस बाडमेर बालोतरा, राजस्थान—344022, ऋण खाता संख्या 30172579, ऋण राशिः रु.2150000 / –(रुपये इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 30172579 के अंतर्गत, डिमांड नोटिस दिनांकः 13–09–2024, दावा की गई राशिः 10.09.2024 तक 21,97,898.60 / – (शब्दों में रुपए इक्कीस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ अट्टानवे और साठ पैसे मात्र) और वास्तविक वसली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकरिमक व्यय, लागत और शल्क आदि, सरक्षा का विवरणः दकान नंबर 13 जे का पूरा टुकड़ा और पार्सल, खसरा नंबर 1039/209 पर स्थित जेरला रोड, बालोतरा, तहसील पचपड़ा जिला बाड़मेर, राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल 387.00 वर्ग फीट उत्तर की ओर सीमा– प्लॉट नंबर 13के , दक्षिण की ओर प्लॉट नंबर 131, पूर्व की ओर— प्लॉट नंबर 08 और 09, पश्चिम की ओर— रोड। **कब्जे की तिथि:** 19—12—2024।

उधारकर्ता का नाम एवं विवरण सह—उधारकर्ता: चूड़ी घर, सिराजुद्दीन मनियार, इस्लाम बानो, महमोद अली मनियार, वहीद अली मनियार, सिराजुद्दीन मनियार, सभीरू 134 के नया बाजार वार्ड नं. 12 चोमू तेह चोमू राजस्थान—303702 और सभी भीः वार्ड नंबर पर स्थित दुकान 10 चार गोरवा मंदिर के सामने नयाबाजार तहसीह, चोम् जिला जयपुर राज चोम्—303702 और सभी भी – वार्ड नं. 124 ओपोजिटगोखो के मंदिर नया बाजार चोमु जयपुर —303702 राजस्थान और सभी स्थान — नया बाजार वार्ड नं. 12 चोमु तह चोमु, 303702 राजस्थान और सभी —134 के नया बाजार वार्ड नं. 12 चौमुतेह चौमु, राजस्थान—303702, ऋण खाता क्रमांक 4204869, 13279913, 2268072 , ऋण राशिः 2915506 रुपये (केवल उनतीस लाख पंद्रह हजार पांच सौ छह रुपये) ऋण खाता संख्या 4204869 के तहत, 886000 रुपये (केवल आठ लाख छियासी हजार रुपये) ऋण खाता संख्या 13279913 के तहत, 2615031 रुपये — (रुपये छब्बीस लाख पंद्रह हजार इकतीस मात्र) ऋण खाता संख्या 2268072 के अंतर्गत, मांग सूचना दिनांकः 13—08—2024, दावा की गई राशिः रु.४८,१९,९८४.४२ / – (शब्दों में रुपये अड़तालीस लाख उन्नीस हजार नौ सौ चौरासी और चालीस और बयालीस पैसे केवल) 13.08.2024 तक और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याजय सुरक्षा का विवरणः संपत्ति की दुकान का पूरा टुकड़ा और पार्सल वार्ड नंबर 10 में स्थित है, चारगोखा मंदिर के सामने, नया बाजार, तहसील – चोमू, जिला – जयपुर, राजस्थान, माप —38.25 वर्ग गज, पूर्व—रोड से घिरा हुआ है, पश्चिम — सड़क, पश्चिम — अन्य, उत्तर — माणक चंद जैन की दुकान, दक्षिण — रास्ता।

उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ताओं का नामः एमएस जाकिर ट्रेडिंग कंपनी, जाकिर हसैन रंगरेज, फरजाना जे, सभी पतेः लाल मस्जिद के पास वार्ड नंबर 16 धोद रोड सीकर —332001 राजस्थान और सर्भ सीकर — 332001, राजस्थान में, ऋण खाता संख्या 11896123, ऋण राशिरू : 2500000 /— (केवल पच्चीस लाख रुपये) ऋण खाता संख्या 11896123 के तहत, मांग नोटिस की तिथिः 13—08—2024, दावा र्क गई राशिः रु. 24,30007.30 /— (शब्दों में रुपए चौबीस लाख तीस हजार सात और पैसे तीस मात्र) 13.08.2024 को और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि, सुरक्षा का विवरणः आवासीय मकान का पट्टा संख्या ४२७७ का पूरा टुकड़ा और पार्सल ७५.५५ वर्ग गज में फैला हुआ है। वार्ड नंबर १६, लाल मस्जिद के पीछे, ईदगाह रोड, सीकर ३३२००१, राजस्थान जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं — पूर्व में मोहम्मद आमीन का घर, पश्चिम में खाली प्लॉट, उत्तर में सार्वजनिक रास्ता 18 फीट चौडा, दक्षिण में — रास्ता 5 फीट चौडा। **कब्जे की तिथिः** 17—12—2024।

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नामः एमएस न्यू दुर्गा सैंडस्टोन, काना राम, छोटी देवी, सभी पतेरू पिपलीबेरा मथानिया जोधपुर, राजस्थान—342001 और सभी पतेः प्लॉट संख्या 821 / 16वीं राजस्थान ग्राग योजना खाता संख्या 583 ग्राम बागा जोधपुर—342001, ऋण खाता संख्या 3007155, ऋण राशिः रु.4001547/— (केवल चालीस लाख एक हजार पाच सौ सैंतालीस रुपये) ऋण संख्या 3007155 के तहत, मांग नोटिस की तिथिः 13—08—2024, दावा की गई राशिः 13.08.2024 तक रु.3082900.13 / — (शब्दों में रु. तीस लाख बयासी हजार नौ सौ पैसे तेरह मात्र) तथा वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदिय सुरक्षा का विवरणः संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, प्लॉट संख्या 821/16, 16वीं राजस्थान ग्राम स्कीम, खसरा संख्या 583, ग्राम बागा जोधपुर राजस्थान 342001। नापः 180.38 वर्ग गज् । पूर्वः— रास्ता 20 फीट, पश्चिमः— गली, उत्तरः— पृथ्वी सिंह, दक्षिणः— गली । **कब्जे की तिथिः** 19—12—2024

उधारकर्ता का नाम एवं विवरण सह—उधारकर्ताः पोषाक, वीरेंद्र एल, पार्वती एल, सभी यहां भी:— स्थान के सामनेवाली गली। ओसवाली मोहल्ला किशनगढ़, राजस्थान—305801 और सभी प्लॉट नं. 44 भाग खसर नं. 762 लिंक रोड, मदनगंज, किशनगढ, जिला—अजमेर राजस्थान—305801 और सभी यहॉ—बास स्टॉप के पीछे वार्ड नंबर 12, छबडाकॉलोनीकिशनगढ, राजस्थान—305801 और सभी यहॉ—509बीएएस स्टैंड के पीछे शीतला मंदिर वार्ड नं. 10 किशनगढ़, राजस्थान—305801, ऋण खाता संख्या 3395091,ऋण राशिरू रु.5399784.2 / — (रुपये तिरपन लाख निन्यानबे हजार सात सौ चौरासी और बीस पैसे मात्र) ऋण संख्या 3395091 के अंतर्गत, मांग सूचना दिनांकः 13— 09—2024, दावा की गई राशिः रु.38,45,069.2 / — (शब्दों में रु. अड़तीस लाख पैंतालीस हजार और उनसठ — बीस पैसे मात्र) 10.09.2024 तक और वास्तविक वसूली तक भावी संविदागत ब्याज, साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदिय सुरक्षा का विवरणः प्लॉट संख्या 44 का पूरा टुकडा और पार्सल, खसरा संख्या 762 से 765 का हिस्सा, लिंक रोड, मदनगंज–िकशनगढ, .जिला – अजमेर, क्षेत्रफल 359.33 वर्ग गज। **कब्जे की तारीखः** 17–12– 2024.

उधारकर्ता का नाम एवं विवरण सह—उधारकर्ताः ममता मार्बल, इंदर चंद जैन, ममता देवी जैन, सभी यहां**:** सी—23, मार्बल मंडी रीको एरिया हरमाडा रोड, मदनगंज किशनगढ़, राजस्थान—305801 और आलोसैट – प्लॉट नं. 26(दुसरी मंजिल) खसरा नं. 594 और 595, जीवन ज्योति नगर तहसील किशनगढ डिस्टजमर, किशनगढ–305801और साथ ही– जीवन ज्योति नगर किशनगढ, राजस्थान–305801, ऋण खाता क्रमांक ९९८१२४९, १४६६४७२३, १८४४२८३, ऋण राशिः रु.२१२५००० / — (रुपये इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र) ऋण संख्या ९९८१२४९ के अंतर्गत, रु. ४२१००० / — (रुपये चार लाख इक्कीस हजार मात्र) ऋण संख्या 14664739 के अंतर्गत, रु. 510099 / — (ऋण संख्या 8284283 के अंतर्गत (केवल पांच लाख दस हजार निन्यानवे रुपये), मांग सूचना दिनांकः 13—08—2024, दावा की गई राशिः रु. 27,18876.82 / — (शब्दों में रु. सत्ताईस लाख अठारह हजार आठ सौ छिहत्तर और बयासी पैसे केवल) 13.08.2024 तक और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज के साथ–साथ आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदिय सुरक्षा का विवरणः प्लॉट नंबर 26 वाली संपत्ति का परा टकडा और पार्सल, पार्ट खसरा नंबर 594 और 595 बीघा 18 बिस्वा, जीवन ज्योति नगर, तहसील किशनगढ और जिला, अजमेर राजस्थान में स्थित है, जिसका माप 300 वर्ग गज है। **कब्जे की तारीख**:17-12-2024.

उधारकर्ता का नाम एवं विवरण सह—उधारकर्ताः पंडित जी थड़ी और शर्मा किराना स्टोर, बबली शर्मा, कपिलशर्मा, सभी यहाँ 32 लक्ष्मण रेखा विस्तार निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर, राजस्थान–302012 और सभी यहाँ – दुकान नं. 22, लक्ष्मण रेखा विस्तार निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर, राजस्थान–302012 और सभी यहां: –प्लॉट नंबर 52 योजना विहार निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर, राजस्थान–302012 और सभी पते परः –प्लॉट नंबर 52 बसंत विहार झोटवाड़ा निवारू रोडजयपुर, राजस्थान–302012, ऋण खाता नंबर 4099825, 8209501,15565675य ऋण राशिरू ऋण खाता संख्या 4099825 के तहत रु 2200000 / -(केवल बाइस लाख रुपये), ऋण खाता संख्या 8209501 के तहत रु 655602 / – (केवल छह लाख पचपन हजार छह सौ दो रुपये), पाँच लाख उन्तालीस हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 15565675 के अंतर्गत, मांग सूचना दिनांकः 13–08–2024, दावा की गई राशिः रु. 31,28,688.72 / – (शब्दों में रु. इकतीस लाख अड्डाईस हजार छह सौ अड्डासी और बहत्तर पैसा केवल) पैसे) 13.08.2024 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदिय सुरक्षा का विवरणः प्लॉट नंबर पर स्थित संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल 52, बसंत विहार कॉलोनी, निवारू रोड, जयपुर 302012,

|भूमि/भूखंड/दुकान का क्षेत्रफल — 152.20 वर्ग गज, पूर्व रोड 30 फीट, पश्चिम — भूखंड संख्या 55, उत्तर — भूखंड संख्या 52—बी, दक्षिण — भूखंड संख्या 52 — ए. **कब्जे की तिथि:** 18—12—2024. **उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नामः** भोजावत ऑटो पार्ट्स, मोहम्मद इमरान, फिरोज एम, महबूब अली, अयुब अली, सभी यहांरू एमपी नगर रोड सर्वोदय बीकानेर एचओ—334001, राजस्थान और सभी यहांरू मोहल्ला सर्वोदय बस्ती पूर्व-गली, पश्चिम- गली, उत्तर- गली, दक्षिण-मुख्यालय मेघसिंह बीकानेर एचओ-334001 और सभी यहाँ - नरसिंह सागर तालाब के पास सर्वोदय बस्ती, बीकानेर हो राजस्थान-334001 और सभी भी – नरसिंह सागर तालाब सर्वोदय बस्ती, बीकानेर हो राजस्थान–334001, ऋण खाता संख्या 12369706, ऋण राशिः रु 2000000 / – (केवल बीस लाख रुपये) ऋण खाता संख्या 12369706 के तहत मांग नोटिस दिनांकः 13-08-2024, दावा की गई राशिः 20,27,392.60 / - (शब्दों में रुपये बीस लाख सत्ताईस तीन सौ बानबें और पैसे साठ मात्र) 13.08.2024 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदिय सुरक्षा का विवरणः मुक्ता प्रसाद रोड पर स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा और परेल, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर, भूमि / प्लॉट का क्षेत्रफल 1917 वर्ग फीट पूर्व – गली, पश्चिम–गली, उत्तर–गली, दक्षिण–श्री मेघ सिंह **कब्जे की तिथिः** 18–12–2024।

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नामः महेंद्र कुमार संचेती, जतन देवी संचेती, पन्ना लाल संचेती, आरती देवी संचेती, सभी स्थानरू वार्ड नंबर—13, नोखा मरोठी चौक नोखा, बीकानेर, राजस्थान—334803 और सभी यहां: प्लॉट नंबर . 559, मरोठी चौक वार्ड नं. 13, नोखा, बीकानेर पूर्वी रामचन्द्र, प्लॉट 559 नोखा—334803 का पश्चिमी भाग और सभी – वार्ड नं.—13, मरोठी चौक नोखा, नोखा—334803 राजस्थान, ऋण खाता क्रमांक 13373273, 8068068, ऋण राशिः 727000 / – रुपये (सात लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र) ऋण खाता संख्या 13373273 के अंतर्गत, 3700000 / – रुपये (सैंतीस लाख रुपये मात्र) ऋण खाता संख्या 8068068 के अंतर्गत, मांग नोटिस दिनांकः 13–08 –2024, दावा की गई राशिः 13.08.2024 तक रु.40,08033.83, / – (शब्दों में रु. चालीस लाख आठ हजार तैंतीस और पैसे तिरासी मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, साथ में आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि। सुरक्षा का विवरणः संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, प्लॉट नंबर 559, नोखा, बीकानेर, राजस्थान—334001 माप 1600.00 वर्ग

गेट, उत्तर — प्लॉट संख्या 559 का हिस्सा, दक्षिण रोड, पूर्व — पी∕ओ श्री राम चंद्र, पश्चिम — पार्टी एफ प्लॉट संख्या 559। कब्जे की तारीखः 18—12—2024

7) कब्जे की तारीखः 18-12-2024।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं का नामः कृष्णा एंटरप्राइजेज, सजग मटर, कृष्णा मैटर, गौरव मैटर, बाबू लाल, सभी का पताः प्लॉट संख्या 210, एफसीआई गोदाम के पास, इंद्रा कॉलोनी नागौर हो–341001 राजस्थान और सभी का पताः इंद्रा कॉलोनी नागौर हो—341001, राजस्थान, ऋण खाता संख्या 30215506, ऋण राशिः ऋण खाता संख्या 30215506 के तहत रु. 2700000 / —(सत्ताईस लाख रुपए मात्र), मांग नोटिस की तिथिः 13—09—2024, दावा की गई राशिः रु. 2759295/— (शब्दों में रुपए सत्ताईस लाख उनसठ हजार दो सौ पंचानबे मात्र) 10.09.2024 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकरिमक व्यय, लागत और प्रभार आदिय सुरक्षा का विवरणः आवासीय संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका माप 1250 वर्ग फीट है, प्लॉट नंबर 210, इंद्रा कॉलोनी, नागौर, राजस्थान, उत्तर – रोड 30 ,फीट चौड़ा, दक्षिण रोड 60 फीट चौड़ा, पूर्व—प्लॉट नंबर 209, पश्चिम—प्लॉट नंबर 193। **कब्जे की तिथिः** 18—12—2024।

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ता का नामः 1. गौरी शंकर, नमन, नमन बूंदी बूंदी एचओ—323001राजस्थान, और इसके अलावाः— खसरा नं. 2179/2177 —ंउचय 2181/2175 ग्राम नमाना बूंदी एचओ—323001 राजस्थान, २.पाराशर कृषि सेवा केंद्र, नमाना, बूंदी बूंदी एचओ—323001 राजस्थान, ३. पिंकी शर्मा, नमाना, बूंदी बूंदी एचओ—323001 राजस्थान, ४. भंवर लाल शर्मा, नमाना, बूंदी बूंदी एचओ—323001 राजस्थान। ऋण खाता संख्या 6966297, 14166953 ऋण राशिः रु. 20,00,000/— (शब्दों में रुपये बीस लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 6966297 द्वारा, और ऋण राशिः रु. 3,83,072/— (शब्दों में रुपये तीन लाख तिरासी हजार बहत्तर मात्र)) ऋण खाता संख्या 14166953 द्वारा मांग नोटिस दिनांकः 13.09.2024, दावा की गई राशिः रु. 17,34,030.68 / – (शब्दों में रुपए सत्रह लाख चौंतीस हजार तीस पैसे अड़सठ मात्र) 10.09.2024 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। प्रतिभूतियों की अनुसूची ।ः खसरा नंबर 2179/2177, गांव नमाना राजस्थान का वह सारा टुकड़ा और पार्सल। मापः 02 बिस्वा, भंवरलाल शर्मा का और खसरा नंबर 2181/2175, गांव नमाना, माप 02.98 बिस्वा गौरीशंकर शर्मा का। **7) तारीख कब्जाः** 17–12–2024.

उधारकर्ता का नाम एवं सह—उधारकर्ताः १. जयराज छात्रावास, ४९३, महावीर नगर, कोटा— ३२४००५ राजस्थान, २. एमएस जयराज छात्रावास, ४९३, महावीर नगर, कोटा— ३२४००५ राजस्थान, ३. पुजा मुनेश अग्रवाल, 493, जयराज छात्रावास, महावीर नगर दूसरा कोटा—324005 अनंतपुरा / फुटा तालाब कोटा—324005 राजस्थान, और इसके अलावारू—493, एम.एन. सस, 439 एम.एन. सस ए—वी कोटा— 324005 राजस्थान, 4. मुनेशदौलतरामग्रावाल, ४९३, जयराज छात्रावास, महावीर नगर द्वितीय कोटा— ३२४००५ अन्ततपुरा / फूटा तालाब कोटा—३२४००५ राजस्थान। ऋण खाता संख्यः १४६७७२५, १०७७००, ८३९४८८० अन्ततपुरा / फूटा तालाब कोटा—३२४००५ राजस्थान। ऋण खाता संख्यः १४६७७२५, १०७७०, १००, १००० रु. 2,74,140 / - (शब्दों में रुपये दो लाख चौहत्तर हजार एक सौ चालीस मात्र) ऋण खाता संख्या 14679251 द्वारा, तथा ऋण राशिः रु. 58,30,000 / - (शब्दों में रुपए अड्डावन लाख तीस हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 10710070 द्वारा, और ऋण राशिः रुपए 16,36,450 / — (शब्दों में रुपए सोलह लाख छत्तीस हजार चार सौ पचास मात्र) ऋण खाता संख्या 8394889, मांग नोटिस दिनांकः 13.08.2024, दावा की गई राशिः रु. 08.08.2024 तक 56,74,786.86 /— (शब्दों में रुपये छप्पन लाख चौहत्तर हजार सात सौ छियासी और पैसे छियासी मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और प्रभार आदि। प्रतिभृतियों की अनुसूची :- संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा और पार्सल दुकान नं. 8, महावीर नगर द्वितीय, कोटा-324007 राजस्थान भूमि का आकार 251 वर्ग फीट बिना छत के अधिकार के, संपत्ति की सीमा इस प्रकार है:- उत्तर- प्लॉट नं. 492 का शेष भाग, दक्षिण- प्लॉट नं. 7, पूर्व- रोड, पश्चिम- प्लॉट नं. का शेष भाग 492. प्रतिभूतियों की अनुसूची ।:- संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल मकान नंबर 493 कॉर्नर, महावीर नगर द्वितीय, कोटा-324007 राजस्थान भूमि का आकार 630 वर्ग मीटर संपत्ति की सीमा इस प्रकार है:- उत्तर- प्लॉट नंबर का शेष भाग 492, दक्षिण- प्लॉट संख्या 493 का शेष भाग, पूर्व-रोड, पश्चिम- प्लॉट संख्या ४९४. 7) कब्जे की तिथि: 17-12-2024.

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नाम: 1. श्री गणपति मार्बल हैंडीक्राफ्टस, बदारदा एनएच–8 बदारदाराजसमंद काकरोली हो—313324 राजस्थान, और साथ ही: प्लॉट नंबर 13. राजस्व जावद में स्थित (खसरा नंबर 861, 862, 863) तहसील और जिला। राजसमंद ककरोली एचओ—313324, 2. रेखा गोयल, सोनिका नगर, कन्हैया कुंज, आलोक स्कूल के पास, राजसमंद ककरोली एचओ—313324 राजस्थान 3. प्रियंका गोयल, धौइना सोनिका नगर, राजसमंद काकरोली एचओ—313324 राजस्थान, 4. सौरभ गोयल, कन्हैया कुंज, सोनिका नगर, आरके हॉस्पिटलरोड, आलोक स्कूल के पास, राजसमंद काकरोली एचओ—313324 राजस्थान, 5. गौरव गोयल, आलोक के पास स्कूल, जावद पो धौइना जिला. राजसमंद काकरोली एचओ—313324 राजस्थान, 6. त्रिलोकी नाथ गोयल, आलोक स्कूल के पास, आरके हॉस्पिटल रोड, कन्हैया कुंज, सोनिका नगर जिला। राजसमंद काकरोली एचओ -313324 राजस्थान. ऋण खाता क्रमांक. 8694104 ऋण राशिः रु. 34,79,000/- (शब्दों में चौंतीस लाख उनासी हजार केवल), मांग सूचना दिनांकः 13.08.2024, दावा की गई राशिः रु. 36,97,993.61 / – (शब्दों में छत्तीस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ तिरानबे और पैसे इकसठ मात्र) 13.08.2024 को और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि।: सुरक्षा का विवरण: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट नंबर 13, राजस्व गांव जावद (खसरा नंबर 861, 862, 863) तहसील और जिला राजसमंद-313324 राजस्थान 2000 वर्ग फीट माप की संपत्ति इस प्रकार घिरी हुई है:- उत्तर- श्री दामोदर प्रसाद का प्लॉट, दक्षिण- श्री गणेश लाल का प्लॉट, पूर्व- सड़क 30 फीट चौड़ी, पश्चिम- आराजी 884 की भूमि।

उधारकर्ता का नाम एवं सह—उधारकर्ताः 1. तेजिंदर सिंह भसीन, 14 ए ब्लॉक बी, कलाकुंज के पास, न्यूकॉलोनी, गुमानपुरा कोटा—324007 राजस्थान, और इसके अलावाः मकान नं. 14 ए. न्यू कॉलोनी गुमानपुरा तहसिलादपुरा जिला कोटा—324007 राजस्थान, 2. सुरेंद्र सिंह भसीन, 14 ए ब्लॉक बी, कलाकुंज के पास, नया कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा—324007 राजस्थान, 3. प्रीति भसीन, 14 ए ब्लॉक बी, कलाकुंज के पास, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा—324007 राजस्थान। ऋण खाता संख्या 3430286, ऋण राशिः रु. 30,00,000 / — (शब्दों में, तीस लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 3430286 द्वारा, मांग नोटिस दिनांकः 25.04.2024, दावा की गई राशिः रु. 26.52.041.40 / – (शब्दों में रुपये छब्बीस लाख बावन हजार इकतालीस और चालीस पैसे मात्र) 25.04.2024 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय. लागत और शुल्क आदि। सुरक्षा का विवरणः संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें सुरक्षा शामिल है मकान नंबर-14 ए, न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा-324007 राजस्थान का हिस्सा। माप:— 900 वर्ग फीट, संपत्ति की सीमा इस प्रकार है— पूर्व— सड़क, पश्चिम— मकान नंबर 14 ए का शेष भाग, दक्षिण— सड़क, उत्तर— मकान का भाग. 7) कब्जे की तारीख: 17.12.2024.

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।) किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री भूपिंदर सिंह बन्याल 8360772826 या श्री विकास आनंद 9711010384, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ई—145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी—स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001 से संपर्क करें। हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए स्थानः जयपुर दिनांकः 23/12/2024

(भारत सरकार का उपक्रम)

रेलटेल

रेलटेल / उत्तरी क्षेत्र द्वारा "रेलटेल के उत्तरी क्षेत्र

के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एकल कक्ष तथा दो कक्षों वाली चिनाई भवनों (ईंट संरचना) के निर्माण के कार्य हेतू अर्ह बोलीदाताओं से 06 पृथक खुली ई-निविदाएँ निमंत्रित की जाती हैं। निविदा सूचना तथा निविदा प्रलेख www.ireps.gov.in एवं www.railtelindia.com पर उपलब्ध हैं। अनुशेष / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल वेबसाइट तथा आईआरईपीएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26" (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मन्नालय नई दिल्ली मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) यथा संशोधित

कैमवर्ड प्राईवेट लिमिटेड CIN: U74999DL2017PTC324505 जिसका पंजीकृत कार्यालय : 8 / 804, ईस्ट एण्ड श्पार्टमेंट मयूर विंडार्-। एक्सट्रेशन, नई दिल्ली-110096. इंडिया में स्थित है

इंमेल आई बी : camword2019@gmail.com

के मामले में

....याचिकाकतो / आवेदक आम जनता को यह सर्वना दी जाती है कि कैमवर्ड प्राईवेट लिमिटेड केन्द्रीय सरकार के समझ ("कंपनी" अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्टीकत गर्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्त प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख रविवार 22 विसम्बर, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में

कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग

कंपनी के फंडीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह ग्रवित या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर गुसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत र्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उत्शिक्तित के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंधोदय त्यन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर्त पर ाजीकत बाक दवारा भेज सकता है या सपर्द कर सकर्त है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनक उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के यह पर भी भेजेगा।

कृत्ते बोर्ड की आर से कृते कैमवर्ड प्राइवेट लिमिटेस स्थान : नई दिल्ली कमर वहीद नकवी दिनाक । 22.12.2024 डीआईएन = 01806428



हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड कॅपॅरिट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्य सताई, सैदापेट, चेन्गई-600015, शाखाः कार्यातय सं. 311 और 312, तृतीय तत, जीडी-आईटीएर टॉवर, ए9, नॉर्थेक्स, नेतामी सुभाव खेस, नई दिल्ली-110034

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सुचना

ਰੀਜ - DL/GRN/OMCN/A000000204

1. श्री अकरम सैफी श्रीमती शमा शमा, दोनों: मकान नं. 136

कें, टोली मोहल्ला, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर

सम्पत्ति पलैट नं. एसएफ-02, क्षेत्रफल 342 वर्ग फीट और एस एफ-03, क्षेत्रफल 342 वर्ग फीट, द्वितीय तल, पीछे दाएँ और बाएँ तरफ, आवासीय फ्रीहोल्ड प्लॉट सं. 61 और 62 पर निर्मित, क्षेत्रफल 66.88 वर्ग मी. = 133.76 वर्ग गज. खसरा संख्या 68 में से. आवासीय कॉलोनी आकाशवाणी समिति, ग्राम सादुल्लाबाद की रेवेन्यू ईस्टेट में, परगना और तहसील लोगी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्ति का भौतिक कब्जा 18.12.2024 को मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन मैसर्स हिंदजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

प्राधिकृत अधिकारी हिंद्जा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक: 22.12.2024, स्थान: दिल्ली



HOUSING FINANCE हेंदुजा हाउसिंग फाईमेंस लिमिटेड कॉर्पेरिट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, थेन्नई-600015, इमेल: auction@hindujahousingfinance.com शाखाः कार्यालय सं- 311 और 312, तृतीय तत, जीडी-आईटीएल

टॉवर, ए९, नॉर्वेक्स, नेतानी सुभाष फेस, नई दिल्ती-110034 अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

 श्री महावीर सिंह, मकान नं. सी1 / 123. वेलकम, सीलमपुर-3, भजनपुरा, दिल्ली -2. सुश्री मीरा, मकान न एक्स-42. वेलकम. सीलमपुर, नई दिल्ली-110053...सह-उधारकर्ता,

दोनों श्री महावीर सिंह और सुश्री मीरा, एफएफ-03 खसरा नं. 237, एलआईजी पलैट्स, गांव सादल्लाबाद परगना-लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश — 201102

ਰੇਜ - DL/DEL/DLHI/A000000142 & DL/DEL/DLHI/A000001126

जबकि कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 31.05. 2023 को पारित आदेश के अनुसार जोकि सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एलआईजी फ्लैट सं. एफ एफ-03, क्षेत्रफल 37.62 वर्ग मी. खसरा सं. 237. ग्राम सादल्लाबाद. परगना-लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्ति का भौतिक कब्जा 18.12.2024 को मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

प्राधिकत अधिकारी हिंद्जा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिनांकः 22.12.2024, स्थानः दिल्ली

जनसता

23 दिसंबर. 2024

नर्ड दिल्ली

साँकेतिक अधिग्रहण सूचना निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई— 400059

ficici Home Finance पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 शाखा कार्यालय : प्रथम तल. बी–20. आवास विकास. दिल्ली मार्ग. सहारनपर– 247001

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को माँग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूँकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नांकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है

| क्र. | ऋणकर्ता / सह–ऋणकर्ता | संपत्ति का विवरण / | माँग सूचना की तिथि / | शाखा |
|------|--|---|--------------------------------------|----------|
| सं. | के नाम/ऋण खाता संख्या | अधिग्रहण की तिथि | माँग सूचना में राशि (रु.) | का नाम |
| 1. | कमल कुमार (ऋणकर्ता), सुमन (सह—ऋणकर्ता), LHSAH00001510207 | खाता नंबर 00146 फसली वर्ष 1425—1430 खसरा नंबर 718 ग्राम अंबेहटा चंद भगवानपुर परगना नागल तहसील रामपुर मणि जिला सहारनपुर सहारनपुर—सहारनपुर उत्तर प्रदेश— 247451 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :— उत्तर : राजेश का खेत / 83.5 फीट, दक्षिण : बृजराज की संपत्ति / 83.5 फीट, पूर्व : दानदाता का खेत / 66 फीट, पश्चिम : बड़गांव सहारनपुर जिला / अधिग्रहण की तिथि—19—दिसम्बर—2024 | 16−08−2024 ₹. 45,48,906.64 / − | सहारनपुर |
| 2. | कमल कुमार (ऋणकर्ता), सुमन (सह—ऋणकर्ता), LHSAH00001510314 | खाता नंबर 00146 फसली वर्ष 1425—1430 खसरा नंबर 718 ग्राम अंबेहटा चंद भगवानपुर परगना नागल तहसील रामपुर मणि जिला सहारनपुर सहारनपुर—सहारनपुर उत्तर प्रदेश— 247451 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :— उत्तर : राजेश का खेत / 83.5 फीट, दक्षिण : बृजराज की संपत्ति / 83.5 फीट, पूर्व : दानदाता का खेत / 66 फीट, पश्चिम : बड़गांव सहारनपुर जिला / अधिग्रहण की तिथि—19—दिसम्बर—2024 | 16─08─2024 रु. 1,76,476.36 / ─ | सहारनपुर |

ऊपर—वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतदद्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों का इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा दिनाँक : 23 दिसंबर 2024 प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड स्थान : सहारनपुर

PRE-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT, CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT & THE LETTER OF OFFER UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

PASUPATI FINCAP LIMITED

CIN: L70100HR1996PLC033099

Registered office: Village Kapriwas, Dharuhera, District Rewari, Haryana-123106 Phone: 01274-267257-58; Website: www.pasupatifincap.co.in; Email Id: cs@pasupatitextiles.com;

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 12,22,000 (Twelve Lakh Twenty Two Thousand) EQUITY SHARES OF ₹10 EACH FROM THE SHAREHOLDERS OF PASUPATI FINCAP LIMITED, (HEREINAFTER REFERRED TO AS ("PFL/"TARGET COMPANY"/"TC") BY MR. DINESH PAREEKH (ACQUIRER), PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Pre-Offer Public Announcement, Corrigendum to the Detailed Public Statement & the Letter of Offer is being issued by Fintellectual Corporate Advisors Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of Mr. Dinesh Pareekh ("Acquirer") pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ['SEBI (SAST) Regulations,'], in respect of the Open Offer to acquire 12,22,000 (Twelve Lakh Twenty Two Thousand) Equity Shares of ₹10/- each of Pasupati Fincap Limited, (Hereinafter Referred to as ("PFL/"Target Company"/"TC") representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was published in all editions of the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated) on Monday, October 14, 2024.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE OFFER.

- The Offer Price is ₹10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share. The Offer price will be paid in Cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulation, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS and Letter of
- Offer. There has been no revision in the Offer Price. The Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommended that the Offer Price of ₹10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. 2011. The recommendation of the IDC was published on December 20, 2024 in all editions of the Financial Express (English)
- Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. Further, there has been no competitive

Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated). Public

- The Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) (hereinafter collectively referred to as "Letter of Offer" dated December 11, 2024, was mailed on December 17, 2024 through electronic means to all the Public Shareholders of the Target. Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on December 17, 2024, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares
- and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on December 10, 2024. ("Identified Date"). The Letter of Offer is also available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) and is available on the Manager to Offer's website (www.fintellectualadvisors.com) and the Shareholders can also apply by downloading the form of acceptance from the websites as
- Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement" at page 20 of the Letter of Offer in relation to inter alia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. A summary of procedure for tendering Equity Shares in the Open Offer is set out below:
- a. In Case of Equity Shares held in dematerialized form; Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Seiling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.2 of the Letter of Offer.
- b. In case of Equity Shares held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.3 of the Letter of Offer along with Form SH-4.
- c. In case of non-receipt of the Letter of Offer: Public Shareholders may (i) download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) and can apply by using the same; or (ii) obtain a physical copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares. Alternatively, such Public Shareholders can download the soft copy of the Letter of Offer from the SEBI website www.sebi.gov.in as well as from the Manager to the Offer website www.fintellectualadvisors.com. Alternatively, in case of non receipt of the Letter of Offer, Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Open Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s) stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares being tendered and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by BSE before the Offer Closing Date.
- The Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 21, 2024 in accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. All observations from SEBI via letter number SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/P/OW/2024/37723/1 dated December 06, 2024, which was received on December 06, 2024, have been duly incorporated in the Letter of Offer, according to Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011
- There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on October 07, 2024. save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
- As of the date of this Offer Opening Public Announcement, no statutory approvals were required by the Acquirer to complete this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the Tendering Period, the Offer shall be subject to all such statutory approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals.
- Revised Schedule of Activities:

| Tentative Schedule of Activities | Original Schedule of Activities Day and Date | Revised Schedule of Activities (Day and Date)* |
|--|---|---|
| Date of the Public Announcement | Monday, October 07, 2024 | Monday, October 07, 2024 |
| Date of publication of the Detailed Public Statement | Monday, October 14, 2024 | Monday, October 14, 2024 |
| Last date of filing of the draft Letter of Offer with SEBI | Monday, October 21, 2024 | Monday, October 21, 2024 |
| Last date for a Competing Offer^ | Tuesday, November 05, 2024 | Tuesday, November 05, 2024 |
| Identified Date# | Thursday, November 14, 2024 | Tuesday, December 10, 2024 |
| Last date by which Letter of Offer will be dispatched to the Shareholders | Friday, November 22, 2024 | Tuesday, December 17, 2024 |
| Last date by which an independent committee of the Board of Target Company shall give its recommendation | Tuesday, November 26, 2024 | Friday, December 20, 2024 |
| Last date for revising the Offer Price/ Offer Size | Wednesday, November 27, 2024 | Friday, December 20, 2024 |
| Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspaper | Thursday, November 28, 2024 | Monday, December 23, 2024 |
| Date of commencement of tendering period (Offer Opening Date) | Friday, November 29, 2024 | Tuesday, December 24, 2024 |
| Date of expiry of tendering period (Offer Closing Date) | Thursday, December 12, 2024 | Tuesday, January 07, 2025 |
| Date by which all requirements including payment of consideration would be completed | Friday, December 27, 2024 | Tuesday, January 21, 2025 |
| And the control of th | | |

*The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various regulatory authorities and may have to be revised accordingly throughout this document. # Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and the parties to the Share Purchase Agreement) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS

This important information is pursuant to Letter of Offer dated December 11, 2024, which was mailed on December 17, 2024 through electronic means to all the Public Shareholders of the Target Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on December 17, 2024, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on December 10, 2024. ("Identified Date"). The following errors were noted in the Letter of Offer, and the same are being corrected as under:

1) Correction to the Offer Closing Date: The Offer Closing Date (i.e., the date of expiry of the tendering period) was erroneously mentioned as January 07, 2024 on the cover

* There was no competing offer.

page of the Letter of Offer. The correct Offer Closing Date is January 07, 2025.

Correction to the STD Code of Telephone Number:

The STD code of the telephone number of the Manager to the Offer on cover page was erroneously mentioned as 1120 in the Letter of Offer while the correct STD code is 0120.

All other terms and conditions of the Offer, as mentioned in the Letter of Offer, remain unchanged.

The Acquirer accepts the responsibility for the information contained in this Advertisement and for the obligations of the Acquirer as laid. down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. This Advertisement will also be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in. Issued by the Manager to the Open Offer

FINTELLECTUAL CORPORATE ADVISORS

Fintellectual Corporate Advisors Private Limited Corporate Off.: B-20, Second Floor, Sector 1, Noida 201301 Tel No.: +91-0120-4266080 Website: www.fintellectualadvisors.com Email Address: info@fintellectualadvisors.com Contact Person: Mr. Amit Puri SEBI Registration Number: MB/INM000012944

CIN: U74999DL2021PTC377748

Place: New Delhi Date: 21.12.2024

Validity: Permanent

Dinesh Pareekh Acquirer

FINANCIAL EXPRESS

PUBLIC NOTICE (Under Section 102(1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. SAMEER KHANNA, PERSONAL GUARANTOR

RELEVANT PARTICULARS Mr. Sameer Khanna Name of debtor/personal guarantor S/o Sh. Pran Nath Khanna Address of the debtor / MA-23, DLF Phase-3, Gurugram, Haryana 122008 personal guarantor Alternate: C-3/2, DLF Qutub Enclave-I, Gurugram, Haryana 122002 18.12.2024 in CP IB no. 33(PB)2022 Details of order and Insolvency commencement date in respect of passed by Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench V Debtors/Personal Guarantors to Corporate Name and registration number of the Vivek Parti Insolvency Professional acting as

Resolution Professional IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376 Add: A-166, 2" Floor, Defence Colony, Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board New Delhi -110024; Email: v parti@yahoo.com Last date for submission of claims 13.01.2025 form B of Insolvency and Bankruptcy Board Relevant Forms in which claim to be filed of India (Insolvency Resolution Process for available at: Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019

Web link:

https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench V, has ordered the commencement of an Insolvency Resolution Process of Mr. Sameer Khanna. Personal Guarantor on 18.12.2024 on an application filed by Bank of Baroda ("BOB") on his default as Personal Guarantor to borrowings of Metaphor Exports Private Limited.

The creditors of Mr. Sameer Khanna, Personal Guarantor are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13.01.2025 to the Resolution Professional at the address mentioned against entry The creditors shall submit their claims with proof with the Resolution Professional by sending details of

the claims by way of electronic communications or through courier; speed post or registered letter Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Vivek Parti

Resolution Professional In the matter of Mr. Sameer Khanna IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-18/11376 Date :23.12.2024 AFA valid till 31.12.2025

POSSESSION NOTICE Whereas, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited (Formerly known as Janalakshmi Financial Services Limited), under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of pow ers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued **demand notices** to the borrower(s)/ Co-borrower(s) calling upon the borrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days from the date of receipt of the said notices, along with future interest as applicable incidental expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and/or realisation.

| | | 0 | . , | |
|------------|----------------|--|---|---------------------------------------|
| Sr. No. | Loan No. | Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor | 13(2) Notice Date/ Outstanding Due (in Rs.) as on | Date/ Time & Type of Possession |
| 1 | 45128240000069 | 1) Mr. Sunita (Applicant), 2) Mrs. Vipin Kumar (Co-Applicant) | 10.10.2024 Rs.2,20,896/- (Rupees Two Lakh Twenty Thousand Eight Hundred and Ninety Six Only) as on 08.10.2024 | |

Description of Secured Asset: Property bearing No.WZ-1501, Built on Land Area Measuring 50 Sq.yds., with all the Roof Rights, out of Khasra No.992, situated in the area of Village Nangal Raya, Delhi State Delhi, Abadi known as Tulsi Ram Bagichi, Nangal Raya, New Delhi-110046. Owned by Mrs. Sunita, W/o. Mr. Vijay Kumar. Bounded as: East: Property of Other's, West: Property of Other's, North: Property of Other's, South: Gali Whereas, the Borrowers/ Co-borrowers/ Guarantors/ Mortgagors, mentioned herein

above have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the Borrowers mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken symbolic possession of the properties/ secured assets described herein above in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned above. The Borrowers/ Co-borrowers/ Guarantors/ Mortgagors, mentioned herein above in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid properties/ Secured Assets and any dealings with the said properties/ Secured Assets will be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited. Place: Delhi NCR Sd/- Authorised Officer

JANA SMALL FINANCE BANK Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park,

Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.

For. Jana Small Finance Bank Limited

LUMAN AUTOMOTIVE SYSTEMS

PRIVATE LIMITED

(CIN: U74899DL1983PTC015973)

Registered Office: G-10, Udyog Nagar,

Delhi, Delhi, India, 110041

Email Id: salesaccounts@lumanauto.com,

Phone No. 8586876438

PUBLIC NOTICE

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014]

of the company from one state to another

Before the Central Government

Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013.

Section 13(4) of Companies Act, 2013

and Rule 30(6) (a) of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Luman Automotive

Systems Private Limited having its

egistered office at the Registered Office

Petitioner.

at G-10, Udyog Nagar, Delhi-110041.

Notice is hereby given to the General

Public that the company proposes to make

application to the Central Government

under section 13 of the Companies Act,

2013 seeking confirmation of alteration

of the Memorandum of Association of the

Company in terms of the special resolu-

tion passed at the Extra ordinary general

meeting held on Monday, 16th Day of

December, 2024 at 02:00 P.M. to enable

the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the

registered office of the company may

deliver or cause to be delivered or send by

registered post of his/her objections

supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of

opposition to the Regional Director at the

address B-2 Wing, 2nd Floor Paryavaran

110003 or on the MCA-21 portal

(www.mca.gov.in) by filing investor

complaint e-form within fourteen days of

the date of publication of this notice along

with a copy to the applicant company at its

registered office address mentioned below:

Address of the Registered Office -

G-10, Udyog Nagar, Delhi-110041

For Luman Automotive Systems

For and on behalf of

Private Limited

Avtar Singh Sethi

DIN: 01521182

(Managing Director)

Sd/-

Bhawan, CGO Complex New Delhi

West Bengal".

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office

In the Court of the 2nd Additional Sr. Civil Judge, Vapi. SMST-R No. 23/2024 Fixed On: 23/12/2024 Planitiff: Coraplast Industries (Formerly known as Bhavin Industries) Having its office at Survey No. 180, Udvada-Pariya Road, Village Dungri,ta. Pardi, Dist. Valsad 396185, through its power of Attorney Shri Sanjay RAtilal Palsetkar

Date: 23.12.2024

IGB POLYMERS PVT. LTD Defendant: A Private Limited Company through its 1) INDERPREET SINGH KOCHHAR

2) INDERMOHAN KAUR KOCHHAR GURJEET KAUR 4) BALPREET SINGH KOCHHAR Office Add: 1-54, Sector-3, Bawana Area Industrial Area Delhi-110039

Whereas above named Planitiff has Instituted

a SMST-R against you Defendant for Suit under section 9 of the Procedure Code for Recovery of Rs.1,07,262.00/-. You Defendant hereby notice to appear in this Court, in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material question relating to the SMST-R or who shall be accompanied by some other person able to answer all such guestions, on the 23 day of December 2024, at 10-30 a.m. in the morn-ing the answer the claim, and as the day fixed for your appearance is appoint- ed for the final disposal of the SMST-R, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and all the documents upon

which you intend to relay in support of your Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned the SMST-R will be heard and determined in your absence. Give under my hand and seal of the court on 29th day of November 2024.

Prepared by (CN.Patel), Assistant, 2nd.Addl.Sr.Civil Court.

(D.R.Patel), Head Clerk, 2nd, Addl. Sr. Civil Court. kegistrar, Principal Sr.Civil Court, Vapi,

I HDFC MUTUAL FUND

BHAROSA APNO KA

Net Asset Value

MUTUAL

Amount of

UNDS Sahi Hai

HDFC Asset Management Company Limited CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 e-mail: hello@hdfcfund.com . Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in the below-mentioned Scheme(s) / Plan(s) / Option(s) of the Fund and fixed Thursday, December 26, 2024 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same as given below:

Name of the Scheme(s) / Plan(s) / Option(s)

| ("NAV") as on December 19, 2024 (₹ per unit) | Distribution (₹ per unit) | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| 17.069 | 0.250* | | | | | |
| HDFC Hybrid Equity Fund - Direct Plan - IDCW Option~ (Payout and Reinvestment) 19.402 | | | | | | |
| 13.137 | 0.220* | | | | | |
| ent) 15.157 lan - ent) 15.460 | | | | | | |
| 39.768 | 0.250* | | | | | |
| 45.974 | 0.250 | | | | | |
| 11.3928 | 0.0800# | | | | | |
| 12.7348 | 0.1000# | | | | | |
| 12.5690 | 0.0800# | | | | | |
| 13.9699 | 0.1000# | | | | | |
| 12.1073 | 0.0800# | | | | | |
| 12.9181 | 0.1000# | | | | | |
| 15.4438 | 0.2000# | | | | | |
| 17.0329 | 0.3000# | | | | | |
| 10.5345 | 0.2035# | | | | | |
| 10.3822 | 0.1879# | | | | | |
| 10.4625 | 0.1858# | | | | | |
| 10.8014 | 0.2055# | | | | | |
| 10.7818 | 0.1263# | | | | | |
| 10.4894 | 0.1866# | | | | | |
| | December 19, 2024 (₹ per unit) 17.069 19.402 13.137 15.460 39.768 45.974 11.3928 12.7348 12.5690 13.9699 12.1073 12.9181 15.4438 17.0329 10.5345 10.3822 10.4625 10.8014 10.7818 | | | | | |

Face Value per unit of all the above Scheme(s) / Plan(s) / Option(s) is ₹ 10/-.

IDCW option - Quarterly Frequency

Amount of distribution per unit will be the lower of the rate mentioned above or the available distributable surplus (rounded down to a multiple of five at the fourth decimal) as on the Record Date. 'Amount of distribution per unit will be the lower of the rate mentioned above or the available distributable surplus (rounded down to a multiple of five at the third decimal) as on the Record Date.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme(s) would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme(s), on the Record date).

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the applicable NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

As mandated under SEBI (Mutual Funds) Regulations and Master circular dated June 27, 2024, for redemptions and IDCW declared, payout will be done only through electronic mode(s), even where a Unit holder has opted to receive physical instruments. Thus, payment of such amounts shall be made through physical instruments, only in exceptional circumstances for reasons to be recorded by the AMC. Accordingly, unit holders who have opted for / have earlier received physical instruments are requested to update their bank account details by / sending us a copy of a cancelled cheque of first / sole holder's bank account.

All updations of PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details, etc. should immediately be forwarded to the Investor Services Centers of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form). Unit holders are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or IDCW payments.

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place : Mumbai Date: December 20, 2024 Authorized Signatory MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME

RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

(A Scheduled Commercial Bank)

Date:

23.12.2024

Place: Delhi

JANA SMALL FINANCE BANK Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. <u>Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.</u>

E-AUCTION NOTICE

PUBLIC NOTICE FOR SALE THROUGH E-AUCTION UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY

INTEREST ACT (SARFAESI ACT) 2002, READ WITH PROVISO RULE 8(6) & 9 OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002. The undersigned as authorised officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken possession of the following property in exercise of powers conferred under section 13(4) of the SARFAESI ACT. The Borrower in particular and public at large are informed that online auction (e-auction) of the mortgage property in the below mentioned account for realisation of dues of the Bank will be held on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" on the date as prescribed as here under.

| 47939420000278 (Applicant), 2) Mr. Aman 13.01.2023 14.09.2024 Lakhs Ninety Three Thousand Two Hundred to Lakhs Ninety Five Nine Thousand Time: Branch Office: 16/12, 2nd Floring Three | Sr. No. | Loan Account Number | Name of Original Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor | Date of 13-2 Notice | Date of Possession | nalance as on | Date & Time of Inspection of the property | Reserve Price in INR | Earnest Money Deposit (EMD) in INR | Date and Time of E-Auction | Last Date, Time & Place for Submission of Bid |
|--|------------|------------------------|--|------------------------|--------------------|---------------|---|----------------------|--|---|---|
| | #1° | 47939420000278 | W/o. Mr. Vinod Prasad (Applicant), 2) Mr. Aman Bhatt, S/o. Mr. Vinod Prasad (Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Three Thousand Two Hundred Nine and Fifty Paisa (Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Three Thousand Two Hundred Nine and Fifty Paisa (Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Five Thousand Two Nine and Fifty Paisa (Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Five Thousand Two Nine and Fifty Paisa (Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Five Thousand Two Nine Thousand Two Nine Thousand Two Nine Thousand Two Nine Nine Ninety Three Thousand Two Nine Ninety Three Ninety T | | | | | | | Jana Small Finance Bank Ltd., Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A Arya Samaj Road, Karol | |

Details of Secured Assets: First Floor LHS Unit (Without Roof Right) Admeasuring 41.805 Sq.mtrs, Built on Plot No.B-120, Khasra No.312 Min, situated at Rail Vihar, Sehkari Awas Samiti Ltd., Village Sadu

| Pargana & Tehsil Loni, District Ghaziabad. Owned by Mrs. Suman Devi, W/o. Mr. Vinod Bhatt. Bounded by: East: Plot No.B-119, West: Rasta 30ft. wide, North: Other's Land, South: RHS Flat. | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|---|----------|----------------------------------|-------|-------------------|---|
| | 1) Mr. Satya Prakash Kashyap, S/o. Mani Ram (Applicant), 2) Mrs. Dayawati, W/o. Satya Prakash Kashyap (Co-Applicant) | | 0: | Seventy One and Sixty Four Paisa Only) | 05:00 PM | Lakhs Twenty Five Thousand Only) | Only) | Time: 11:00 AM | 27.01.2025 Before 5.00 PM Jana Small Finance Bank Ltd., Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005. |
| Details of Secured Assets: Plot No.C-9/6, Area 55.74 Sq.mtrs., Flat No.LGF-1, Lower Ground Floor without Roof, DLF Ankur Vihar, Vill. Sadullabad, Loni, Ghaziabad. Owned by Mrs. Dayawati, W/o. Mr. Satya | | | | | | | | | |

Prakash Kashyap. Bounded by: East: Others Property, West: Rasta 30 Ft. wide, North: Vacant Plot, South: Other's Property. The properties are being held on "AS IS WHERE IS BASIS" & "AS IS WHAT IS BASIS" and the E-Auction will be conducted 'On Line'. The auction will be conducted through the Bank's approved service provider M/s. 4 Closure at the web portal https://bankauctions.in & www.foreclosureindia.com. For more information and For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact

M/s. 4 Closure; Contact Mr. Uttkarsh Adesh Contact Number: 9515160064. Email id: info@bankauctions.in/ adesh@bankauctions.in/ For further details on terms and conditions to take part in e-auction proceedings and any for any query relating to property please contact Jana Small Finance Bank authorized officers Mr. Shashi Kumar (Mob. No.8700277112), Mr. Rakesh Sharma (Mob. No.7230070463), Mr. Ranjan Naik (Mob. No.6362951653), to the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there are no encumbrances on the properties. However the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property put on prior to submitting their bid. No conditional bid will be accepted. This is also a notice to the above named Borrowers/ Guarantor's/ Mortgagors about e-auction scheduled for the mortgaged properties. The Borrower/ Guarantor/ Mortgagor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of auction, failing which the property will be sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Date: 23.12.2024, Place: Ghaziabad Sd/- Authorized Officer, Jana Small Finance Bank Limited

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

OICICI Home Finance | Registered office. Mumbai- 400051 Registered office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),

Corporate Office: ICICI HFC Tower, IB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059 Branch Office: Showroom no. 301, 3rd floor, Shri Ram Arcade, Old Municipal No. 74, Rajpur Road, Dehradun Pin: 248009

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Sr. Name of the Borrower/ Date of Demand Name Description of property/

| No. | Co-borrower/ Loan Account Number | Date of Possession | Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.) | of Branch |
|-----|--|--|---|----------------|
| | Niraj (Borrower), Pinki (Co-Borrower), LHDEH00001504373. | Plot No 80 A Khasra No. 66 Situated At Wake Panjara Bairoon Pargana Tehsil And District Saharanpur Dar Abadi Ashik Vatika Colony Sahranpur 247001 Saharanpur-Uttar Pradesh 247001 (Ref. Lan No. LHDEH00001504373). Bounded By- North: Land of Harpal/ 47 Ft. South: Plot of Gulab Singh/ 53.6 Ft. East: Land of Smt Sudesh Rani, West: Road 8 Ft./ Date of Possession- 19-Dec-24 | 19-04-2024 Rs. 13,25,384/- | Dehradun- B |
| | Niraj (Borrower), Pinki (Co-Borrower), LHDEH00001505197. | Plot No 80 A Khasra No. 66 Situated At Wake Panjara Bairoon Pargana Tehsil And District Saharanpur Dar Abadi Ashik Vatika Colony Sahranpur- 247001 Saharanpur Uttar Pradesh 247001 (Ref. Lan No. LHDEH00001505197). Bounded By- North: Land of Harpal/ 47 Ft ,south: Plot of Gulab Singh/53.6 Ft, East: Land of Smt Sudesh Rani, West: Road 8 Ft/ Date of Possession- 19-Dec-24 | 19-04-2024 Rs. 47,229.34/- | Dehradun- B |

Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Authorized Officer. Date: December 23, 2024. Place: Saharanpur ICICI Home Finance Company Limited PRE-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT, CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT & THE LETTER OF OFFER

UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS

The above-mentioned borrowers(s)/ quarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount,

else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this

REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF PASUPATI FINCAP LIMITED

CIN: L70100HR1996PLC033099

Registered office: Village Kapriwas, Dharuhera, District Rewari, Haryana-123106 Phone: 01274-267257-58; Website: www.pasupatifincap.co.in; Email Id: cs@pasupatitextiles.com;

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 12,22,000 (Twelve Lakh Twenty Two Thousand) EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH FROM THE SHAREHOLDERS OF PASUPATI FINCAP LIMITED, (HEREINAFTER REFERRED TO AS ("PFL/"TARGET COMPANY"/"TC") BY MR. DINESH PAREEKH (ACQUIRER), PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Pre-Offer Public Announcement, Corrigendum to the Detailed Public Statement & the Letter of Offer is being issued by Fintellectual Corporate Advisors Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of Mr. Dinesh Pareekh ("Acquirer") pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ['SEBI (SAST) Regulations,'], in respect of the Open Offer to acquire 12,22,000 (Twelve Lakh Twenty Two Thousand) Equity Shares of ₹10/- each of Pasupati Fincap Limited, (Hereinafter Referred to as ("PFL/"Target Company"/"TC") representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was published in all editions of the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated) on Monday, October 14, 2024.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE OFFER.

- The Offer Price is ₹10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share. The Offer price will be paid in Cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulation, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS and Letter of Offer. There has been no revision in the Offer Price The Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommended that the Offer
- Price of ₹10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. 2011. The recommendation of the IDC was published on December 20, 2024 in all editions of the Financial Express (English) Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated). Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. Further, there has been no competitive
- The Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) (hereinafter collectively referred to as "Letter of Offer")
- dated December 11, 2024, was mailed on December 17, 2024 through electronic means to all the Public Shareholders of the Target Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on December 17, 2024, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on December 10, 2024. ("Identified Date")
- The Letter of Offer is also available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) and is available on the Manager to Offer's website (www.fintellectualadvisors.com) and the Shareholders can also apply by downloading the form of acceptance from the websites as
- Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement" at page 20 of the Letter of Offer in relation to inter alia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. A summary of procedure for tendering Equity Shares in the Open Offer is set out below:
- a. In Case of Equity Shares held in dematerialized form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.2 of the Letter of Offer.
- b. In case of Equity Shares held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.3 of the Letter of Offer along with Form SH-4. c. In case of non-receipt of the Letter of Offer: Public Shareholders may (i) download the same from the SEBI website
- (www.sebi.gov.in) and can apply by using the same; or (ii) obtain a physical copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares. Alternatively, such Public Shareholders can download the soft copy of the Letter of Offer from the SEBI website www.sebi.gov.in as well as from the Manager to the Offer website www.fintellectualadvisors.com. Alternatively, in case of non receipt of the Letter of Offer, Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Open Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares being tendered and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by BSE before the Offer Closing Date
- The Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 21, 2024 in accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. All observations from SEBI via letter number SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/P/OW/2024/37723/1 dated December 06, 2024, which was received on December 06, 2024, have been duly incorporated in the Letter of Offer, according to Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on October 07, 2024.
- As of the date of this Offer Opening Public Announcement, no statutory approvals were required by the Acquirer to complete this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the Tendering Period, the Offer shall be subject to all such statutory approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such
- Revised Schedule of Activities: Original Schedule of Revised Schedule of

Tentative Schedule of Activities

save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer

| Terriditye Scriedule of Activities | Activities Day and Date | Activities (Day and Date)* |
|---|------------------------------|----------------------------|
| Date of the Public Announcement | Monday, October 07, 2024 | Monday, October 07, 2024 |
| Date of publication of the Detailed Public Statement | Monday, October 14, 2024 | Monday, October 14, 2024 |
| Last date of filing of the draft Letter of Offer with SEBI | Monday, October 21, 2024 | Monday, October 21, 2024 |
| Last date for a Competing Offer* | Tuesday, November 05, 2024 | Tuesday, November 05, 2024 |
| Identified Date# | Thursday, November 14, 2024 | Tuesday, December 10, 2024 |
| Last date by which Letter of Offer will be dispatched to the Shareholders | Friday, November 22, 2024 | Tuesday, December 17, 2024 |
| Last date by which an independent committee of the Board of Target Company shall give its recommendation | Tuesday, November 26, 2024 | Friday, December 20, 2024 |
| Last date for revising the Offer Price/ Offer Size | Wednesday, November 27, 2024 | Friday, December 20, 2024 |
| Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspaper | Thursday, November 28, 2024 | Monday, December 23, 2024 |
| Date of commencement of tendering period (Offer Opening Date) | Friday, November 29, 2024 | Tuesday, December 24, 2024 |
| Date of expiry of tendering period (Offer Closing Date) | Thursday, December 12, 2024 | Tuesday, January 07, 2025 |
| Date by which all requirements including payment of consideration would be completed | Friday, December 27, 2024 | Tuesday, January 21, 2025 |

^ There was no competing offer.

*The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various regulatory authorities and may have to be revised accordingly throughout this document. # Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and the parties to the Share

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS This important information is pursuant to Letter of Offer dated December 11, 2024, which was mailed on December 17, 2024 through

electronic means to all the Public Shareholders of the Target Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on December 17, 2024, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on December 10, 2024. ('Identified Date'). The following errors were noted in the Letter of Offer, and the same are being corrected as under:

1) Correction to the Offer Closing Date: The Offer Closing Date (i.e., the date of expiry of the tendering period) was erroneously mentioned as January 07, 2024 on the cover page of the Letter of Offer.

The STD code of the telephone number of the Manager to the Offer on cover page was erroneously mentioned as 1120 in the Letter of Offer while the correct STD code is 0120.

remain unchanged. This Advertisement will also be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in.

Purchase Agreement) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

All other terms and conditions of the Offer, as mentioned in the Letter of Offer, remain unchanged. The Acquirer accepts the responsibility for the information contained in this Advertisement and for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. All other terms and conditions of the Offer shall



The correct Offer Closing Date is January 07, 2025. Correction to the STD Code of Telephone Number:

Fintellectual Corporate Advisors Private Limited Corporate Off.: B-20, Second Floor, Sector 1, Noida 201301 Tel No.: +91-0120-4266080

Website: www.fintellectualadvisors.com Email Address: info@fintellectualadvisors.com Contact Person: Mr. Amit Puri

SEBI Registration Number: MB/INM000012944

Validity: Permanent CIN: U74999DL2021PTC377748

Date: 21.12.2024 New Delhi

Place: New Delhi

Dinesh Pareekh Acquirer